क्रमांक Sr.No Branch Code Branch Name

निवासी गैर व्यक्तिगत खाता खोलने का फॉर्म RESIDENT NON-INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM

करंट/सी सी/ओ	ंडी / सेविंग –कार्पोरेट (Current/CC/OD/Saving-Corporate)
ग्राहक आईडी	Existing Update Change देखें जोखिम वर्गीकरण Risk code list) CC / OD / KCC बचत S (एव यू एफ) सोसाइटी दुस्ट वि sh Credit सामान्य बचत Saving	AVINGS टर्म डिपॉज़िट TERM DEPOSIT General संचमी जमा Cumulative Deposit Saving अल्प अवधि जमा SHORT TERM DEPOSIT अल्प अवधि जमा SHORT TERM DEPOSIT वस्रू आई डी एस QIDS
	दस्तावेज की सूची LIST OF DOCUMENT	S
प्रकल स्वामित्व खाता Sole Proprietorship Account सरकारी अधिकारियों द्वारा फर्म के काम पर जारी किया गया पंजीकरण प्रव Registration Certificate issued in the name of the firm by Government Author	शाण पत्र। ititles. । पंजीकरण प्रमा ititles. । पंजीकरण प्रमा ititles. । पंजीकरण प्रमा ं प्रमाण पत्र लाइसेंस। lishment Act. जीएसरी लाजू नहीं है। ST is not applicable. थण बरतावेज। ब्रो Tax authorities. प्रतिष्ठान को जारी किया 5 निकाय द्वारा मालिकाना अकाउंदेश आफ पंजीकृत सोस पंजीकृत सोस पंजीकृत सोस पंजीकृत सोस पंजीकृत सोस सोसायिटियाँ के Registration C शासी विकाय प्राथा विकाय प्राथा विकाय प्राथा विकाय शासी विकाय शोसायिटियाँ के Registration C शासी विकाय शोसायिटियाँ के Registration C शासी विकाय शोसायिटियाँ के स्वारा विकाय शोसायिटियाँ के प्राथा विकाय शोसायिटियाँ के प्राथा विकाय शोसायिटियाँ के प्राथा विकाय वि	पात्र (अगर उपलब्ध हो) Registration Certificate (If available) की स्थानी खाता रांख्या उपलब्ध हो) Registration Certificate (If available) की स्थानी खाता रांख्या उपलाभ Number of the Partnership Firm ह नोटये परिवाक द्वारा विधिवत सत्यापित। ed duly attested by Notary Public सरकर्ताओं का ओवीडी I OVD of Authorized Signatories का प्रमाण । Address proof of the company
	क उपयोग के लिये FOR BANK L Permitted to open Account	
Sourced By Signature	KYC Compliance Officer Signature	Back Office Inputter Signature
Emp.Name E.Code	Emp.Name E.Code	
I hereby declare that I have personally met the	Branch Head	Authorizer
customer at his/her communication address (In case communication/mailing address is different from permanent address) Signature Emp.Name E.Code E.Code	Signature	Signature
E.Code	Emp.Name	Emp.Name E.Code

Capital Small Finance Bank 🔀

संस्था/ संगठन का नाम DETAILS OF ORGANISATION
संस्था/संगठन का नाम Entity Name
ਪੈਜ ਜਸਕਦ PAN NO supplied to the supplied by
रिजस्ट्रेशन नम्बर Regd. No. जी एस टी जी एस टी GST
मैं/ हम सी एस एफ बी से मेरी/ हमारी ग्राहक आई डी में जी एस टी अपडेट करने का अनुरोध करता हूँ। मैंने/ हमने जी एस टी नेटवर्क पर जीएस टी के लेखांकन की कार्य प्रणाली को पढ़ एवं समझ लिया है और मुझे/ हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। I/We request CSFB to update GST in my/our Cust ID. I/We have read & understood the methodology of accounting of GST on GST Network & do not have any objection to it.
— methodology of accounting of GST of GST Network & do not have any objection to it. निवास पता ADDRESS
*स्थायी निवास पता Registered Address
CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO
मेल का पता Mailing Address
LANDMARK
CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO
व्यवस्था CONSTITUTION एक स्वामित्व सिंदेदारी कर्म पाडवेट लिसिटेड कंपनी सिंगत लोक कपनी एवं य एफ
Sole Proprietorship Partnership Firm Private Ltd Co. Public Ltd.Co. HUF
समाज/समाजिक ट्रस्ट विंक सीमित ढायित्व भागेदारी Society Bank Limited Liability Partnership
लाभार्थी कंपनी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई गई व्यांवसायिक इकाई सरकारी Goverment अन्य Others
व्यावसाय की प्रकृति NATURE OF BUSINESS
कमीशन एजेंट फुटकल विक्रेता थोक विक्रेता उत्पादक सर्विस प्रदाता Commission Agent Retailer Wholesaler Manufacturer Service Providers
होटल/ रेस्टोरेंट अस्पताल/ क्लिनिक शैक्षिक संस्था निर्यात/ आयात एन बी एफ सी/म्युचुअल फंड Hotel / Restaurant Hospital /Clinic Educational Institution Export / Import NBFC/Mutual Fund
ौर सरकारी संगठन विमा शेयर और स्टॉक ब्रोकर किसान Agriculturist अन्य Others
उद्योग विवरण कार्यालयों की संख्या कर्मचारियों की संख्या व्यवसाय का वर्ष
Industry Description No. of Offices No. of employees Year of Business
ਕੂਰ ਗ੍ਰਫ਼ੀ Net Worth
संचालन का तरीका MODE OF OPERATION
एकल स्वामी कोई भी भागीदार/निर्देशक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से Sole Proprietor Anyone Partner(s) Director(s)
अन्य निर्दिष्ट करें Other Specify
ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा DECLARATION REGARDING CREDIT FACILITIES
मैं/हम एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा करते हैं और वचन देता हूँ/ देते हैः I/We hereby declare and undertake as under: (1) फर्म ने किसी अन्य बैंक से कोई सी सी/ ओ डी सीमा प्राप्त नहीं की हुई है। The firm is not availing any CC/OD limit from any other bank. (2) फर्म अन्य बैकों से सी सी/ ओ डी के अतिरिक्त अन्य ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही है The firm is availing credit facilities (other than СС/ОD) from other banks and the total sanctioned exposure from the banking system including Credit facilities with Capital Small Finance Bank Limited is:
a) 5 करोड़ रूपए से कम Less than Rs. 5 crore b) 5 करोड़ रूपए या अधिक लेकिन 50 करोड़ रूपए से कम 5 Crore or more but less than Rs. 50 Crore c) रूपए 50 करोड़ या अधिक Rs. 50 Crore or more
(3) उपरोक्त बिन्दु २ के तहत मेरे/हमारे द्वारा उल्लेखित स्वीकृत एक्सपोज़र के अनुसार, मैं/हम कैंपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सूचित करेंगे कि जब और किसी बैंकिंग सिस्टम से फर्म द्वारा प्राप्त स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं (कैंपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ क्रेडिट सुविधाओं सहित) किन अन्य मानदंड के तहत योग्य हो जाती हैं और उनके खाते में संचालन के बाद लागू नियम शर्तों और कानून के प्रावधानों और कैंपिटल स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आंतरिक दिशानिर्देशों के
अधीन होंगे और मैं/हम इसके लिए बाध्य रहेंगे। As per the sanctioned expousure mentioned by me/us under Point 2 above, I/We shall inform Capital Small Finance
Bank Limited as and when the sanctioned credit facilities availed by the Firm from the banking system (including credit facilities with Capital Small Finance Bank
Limited) falls/becomes eligible under any other criteria and thereafter the operations in the account shall be subject to the applicable terms/conditions and provisions of law and internal guidelines of Capital Small Finance Bank Limited and I/we shall be bound by the same;
(4) मैंने/हमने बैंक को समय–समय पर उपरोक्त के लिए फर्म के व्यूरो रिपोर्ट जेनरेट करने के लिए उद्देश्य किया है। I/We further authorize the bank to generate bureau
reports of the firm for the above purpose from time to time .
Signature(s) with stamp Signature(s) with stamp Signature(s) with stamp
(प्रोपराइटर/ पार्टनर्स/ डायरेक्टर्स आदि द्वारा हस्ताक्षरित एवंम मुहर लगााई जाए To be Stamped & signed by the Proprietor / Partners / Directors etc.)

| AUTH | ORISED SIGNAT | DRY-1 | Y N | 'लाभार्थ
 | िस्वार्म | t Bene | ficiary (|)wner |
 | % | नियु | क्त ।
 | Desi | gnat | tion | |
 | | | | |
 | | अनिवार्य | फीलड *F | elds are
 | e Mandator |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
ग्राहक Custo	ID omer Id		
 | | F | जन्म
Place d | | th [
 | | |
 | | | | |
 | | | | | वर्गी
zoris
 | | | | Т
 | |
*नाम N	Name		
 | | | | П |
 | | |
 | | | | | Т
 | | | | T |
 | | | |
 | $\overline{\Box}$ |
| *जन्म | तिथि DOB | MM | YY | YY
 | ** | वैवाहिक | स्थिति | Mai | rital
 | Stat | us | एकर
 | त्र Siı | ngle | - |] f | वेवार्वि
 | हेत | Mai | rrie | d [| अ
 | न्य (| Othe | rs |
 | |
| *लिंग | Gender 🔲 पुरू | ष Male | ि स्त्र | lt Fem
 | ale | किन्न | ार Tran | sgen | der
 | | *राष्ट्रीर | ाता N
 | latio | nali | ity | | भार
 | रतीर | य Ind | diar | ı [| 3
 | ान्य | Oth | ers |
 | |
| *जाती | य श्रेणी Caste ca | egory [| | सामान्य
 | Gener | al [| पध | ग्ड़ी ज | जाति
 | ОВО | | y
 | स स | r sc | : [| | एस
 | ਟੀ | ST | | Г |
 | | | |
 | |
| वोटर l
Voter | | | |
 | पोर्ट न.
port No | | | |
 | | पैन व
PA | ਗਰ <mark>ੰ</mark> [
N
 | | | | |
 | | | | |
 | | | |
 | |
ड्राइविंग	ा लाइसेंस Driving Li	cence	
 | | | | A. |
 | धार
HAAF | . □ |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | |
 | |
| फार्म
Form | | | |
 | | ोक्षाणिक
*Qualific | योग्यता
cation | |
 | | | रोज़ग
cupa
 | | | | |
 | | | | |
 | | Pas | spo | rt
 | |
	का नाम er's Name		
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | S | Size | Pho | oto
 | |
	का नाम er's Name		
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | |
 | |
*जीवन र *Spouse	साथी का नाम e Name		
 | | | | |
 | T | |
 | | | | T |
 | | | T | 7 |
 | | | |
 | |
*स्थायी	निवास पता		ΤĖ
 | ΤĖ | | TT | Ħ |
 | İ | |
 | İ | Ì | Ì | Ì |
 | | | | |
 | | | re wi | h Sta
 | |
| | | | |
 | | | | | İ
 | | |
 | | L | . A | N | D
 | M | А | R | K |
 | | | |
 | |
| CI | TY |] | PI | N C
 | 0 0 | E | 5 | ST | А
 | ТЕ |] | С
 | 0 L | JN | I | R | Υ
 | | | | M | O B
 | 1 | L | Е | Ν
 | 0 |
| ਸ਼ੁਲ ਕ
Mailir | का पता
ng Address | | | \perp
 | $\perp \perp$ | $\perp \perp$ | \perp | \perp |
 | _ | $\perp \perp$ | \perp
 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u>
 | <u> </u> | | | 4 | \perp
 | <u> </u> | Ш | _ | Щ
 | |
		+	PI
 | | | | |
 | TE | 1 |
 | | | | IR |
 | 1 | | Ц | D 4 |
 | A | . N | D N | A
 | RK |
| ई मेल | । | | | NC
 | | E | | > 1 |
 | | |
 | 0 1 | 1 N | + | T | T
 | ┰ | | | M | O B
 | | | | IN
 | |
,	ਸਲੈਬ: Income Slab:	\vdash	ਲੱਖ 1 Lac
 | >1-2.5 | | | ਲੱਖ
2.50-5 |
 | |] ອັນ
 > 5 L |
 | | | | |
 | - | | | |
 | | | |
 | |
| | | ातन
alary | ै पें श
Pensi | न <u> </u>
 | व्यापा | रिक अ
ess Inco | ाय 🗀 | | षि
 | |
 नि | -ao
वेशित
tmen
 | | | Г | | हराए
ental
 | | | अन्य
Oth | I
ers |
 | | | लिखें
Spec |
 | |
| *कुल ३ | आय | र. 100 ह
Upto Rs | गख तक |
 | रु.100 | लाख से | 200 ਕ
00 Lac | ाखतव | क
 | | | ₹.2
 | 200 ਜ
ove f | ाख र | | _
00 ਕ | ाख ।
 | तक | lac | | |
 | ₹ | 5. 500 | जाख
शास
1. Rs. | से उ
 | |
| *सी के | वाई सी | नया
New | ा म | ोजूदा क
 | गेई परि | वर्तन नः | €1. [| ਸੰ | ौजूद
 | ा में प | रिवर्तन
e chang | 7
 | सी के | वाई | सी न | |
 | | | Т | | \top
 | | | |
 | |
| *CKY
कपनी | में 10% से अधिक उ | ोयर पंजी | रखने व | Existin
गले और
 | . पार्टनर | शिप में | 10% से | अधिक | रख
 | ने वार् | ने सभी इ | शेयरध
 | ारकों | YC 1
की प | गहचा | न 3 | ार
ग
 | ते व | हे दर | तावे | नों क | ो अनि
 | वार्य | रूप | से आ |
 | न्ता _. होर्ग |
| Identi | ity & Address docu | ments of | all sha | reholde
 | | | e than | |
 | | |
 | | | | | an 1
 | 0% | ın a p | oartr | iersi | nip w
 | ill be | e mar | dator | ily red
 | quired |
| | | | | T A
 | | | | |
 | _ | |
 | | | | | 1
 | भाग | В | PAR | тр |
 | | | |
 | |
| | + | भाग A | |
 | ਮਿਤ ਕਰਤੀ ਜੀ | गागिज ≱2 | हा Ye | s न | ∏ No
 | 2 | | ` ` `
 | | | | |
 | | | AIN | ГВ |
 | | | |
 | |
| a. | क्या आप भारत के अलावा नि
Are you Citizen of any c
(dual/multiple) (includir | ज्सी अन्य देश
ountry other | के नागरिक
r than Indi | हैं.जिसमें ग्र
 | ीन कार्ड भी | शामिल है? | हा Ye | | ∏ No
 | <u> </u> | कर निवा | स के वि
 | लेए पता | / Add | ress fo | r Tax |
 | | | शहर (| |
 | | | |
 | |
| a.
b. | क्या आप भारत के अलावा वि
Are you Citizen of any c | oसी अन्य देश
ountry other
g Green Car
श भारत व | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव | हैं,जिसमें ग्र
ia
T कोई वे
 | देश है? | शामिल है? | | |
 | <u> </u> | कर निवा
देश Cour | ntry
 | | | | r Tax |
 | | | शहर (| City | place
 | of birt | th | |
 | धन का स्रोत |
| | क्या आप भारत के अलावा वि
Are you Citizen of any c
(dual/multiple) (includin
क्या आपका जन्म दे
Is your Country of b
क्या आप भारत के द
Are you Tax resident | ज्सी अन्य देश
puntry other
g Green Ca
श भारत व
rth is any
मलावा किर
of ANY co | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव
country (
सी अन्य
untry/lies | हैं,जिसमें ग्र
ia
Tकोई दे
other tha
देश के द
s other th
 | देश है?
n India?
कर निवार
an India? | सी हैं? | | |
 | | देश Cour
जन्म का
Source of | ntry
देश Co
Wealth
 | ountry o | of Birth | | r Tax | Reside
 | ence_ | | शहर (
जन्म
राष | ity
स्थान
ट्रीयता | place (
 | ılity_ | | यान दः |
 | - |
| b. | क्या आप भारत के अलावा वि
Are you Citizen of any c
(dual/multiple) (includit
क्या आपका जन्म दें
Is your Country of b
क्या आप भारत के द
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or | ज्सी अन्य देश
puntry other
g Green Ca
श भारत व
rth is any
मलावा किर
of ANY co | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव
country (
सी अन्य
untry/lies | हैं,जिसमें ग्र
ia
Tकोई दे
other tha
देश के द
s other th
 | देश है?
n India?
कर निवार
an India? | सी हैं? | | |
 | | देश Cour
जन्म का
Source of | ntry
देश Co
 | ountry o | of Birtl
देश | h | r Tax | Reside
 | ence_ | | शहर (
जन्म
राष् | ity
स्थान
ट्रीयता | Nationa
 | ılity_ | र पह | वान द
ıtificat | स्तावेज
 | - |
| b.
c. | क्या आप भारत के अलावा ि
Are you Clitzen of any c
(dual/multiple) (includii
क्या आपका जन्म दें
Is your Country of b
क्या आप भारत के द
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India? | ज्सी अन्य देश
puntry other
g Green Car
er भारत व
rth is any
Hलावा किर
of ANY co
या मैंडेट ध
a mandate | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव
country (
सी अन्य
untry/lies
ारक है जि | हैं,जिसमें ग्रं
a
T कोई दे
other tha
देश के द
s other th
स्सका पता
who has a
 | देश है?
n India?
कर निवा
an India?
भारत से
in addres | सी हैं?
े
बाहर है?
s | | 1 |
 | | देश Cour
जन्म का
Source of | ntry
देश Co
Wealth
 | ountry o | of Birtl
देश | h | or Tax | Reside
 | ence_ | वान र | शहर (
जन्म
राष् | ity
स्थान
ट्रीयता | Nationa
 | ılity_ | र पह | वान द
ntificati | स्तावेज
 | |
| b.
c. | क्या आप भारत के अलावा ितर you Clitizen of any c (dual/multiple) (includii व्या आपका जन्म दें Is your Country of b क्या आप भारत के दिन प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प | रुसी अन्य देश
puntry other
g Green Car
श भारत व
rth is any
मलावा किर
of ANY co
या मैंडेट ध
a mandate
है बाहर क
lephone ni | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव
country (
सी अन्य
untry/lies
irvo है जि
e holder v
or पता य
umber ou
का उत्तर | हैं,जिसमें ग्रं
a
T कोई टे
other tha
देश के द
s other th
two has a
T टेलीफ
ttside Ind
हाँ हैं त
 | देश है?
n India?
कर निवा
an India?
भारत से
un addres
ोन नंबर
lia | सी हैं?
श
बाहर है?
है।
माग ख | | 1 |
 | | देश Cour
जन्म का
Source of | ntry
देश Co
Wealth
 | ountry o | of Birtl
देश | h | or Tax | Reside
 | ence_ | वान र | शहर (
जन्म
राष् | ity
स्थान
ट्रीयता | Nationa
 | ılity_ | र पह | वान द
ntificat | स्तावेज
 | |
| b.
c.
d. | क्या आप भारत के अलावा ितर you Clitzen of any c (dual/multiple) (includii क्या आपका जन्म दे Is your Country of b क्या आप भारत के दितर you Tax resident क्या आपके पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आपका भारत है Is Your address or to यदि उपरोक्त किसी If your answer to any Undertaking: | off अन्य देश
buntry other
g Green Car
gr H1 tet a
rth is any
of ANY co
या मैंडेट घ
a mandate
हे बाहर क
lephone in
H प्रश्न द | के नागरिक
r than Indi
rd)?
के अलाव
country of
fl अन्य
untry/lies
irva है जि
e holder v
or पता य
umber ou
का उत्तर
ove quest | हैं,जिसमें ग्रं
ia
T कोई टे
other tha
देश के ट
o other th
Hसका पता
vho has a
T टेलीफ
tiside Ind
हाँ है ते
ions is a
 | देश है?
n India?
कर निवाः
an India!
भारत से
un addres
ोन नंबर
lia
ो कृपया
"YES' pl | ती हैं?
!
बाहर है?
s
है।
भाग ख
ease fill I | ा
च
भरें। | |
 | | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou | atry
देश Co
Wealth
निवास
ntry of
 | ountry o | of Birth
देश
eside | hency | | Reside
 | पहर
ider | वान र
ntifica | शहर (
जन्म
राष्
मंख्या
tion r | City
स्थान
ट्रीयता
uumb | Nationa
er*
 | ality_
स
T | oर पह
ax ide | ntificat | स्तावेज
on Do
 | ज
g
cument |
| b. c. d. e. l. 并 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitizen of any c (dual/multiple) (including and the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the s | ल्सी अन्य देश ountry other puntry other puntry other graph of a light of ANY co of ANY co of ANY co of a mandate of a mandate of the abo — प्रमाणि स्रार अपन | के नागरिक r than Indi r than Indi r than Indi r d)? के अलाव country of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation repre | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई टे
other tha
देश के दे
s other th
सका पता
who has a
n टेली
हाँ है ते
ions is a
घोषित
 | देश है? n India? n India? with the first that an address in first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first | सी हैं? शिक्षाहर है? है। भाग ख ease fill I | #\tilde{\tau} Part B | प्रत्यक्ष
certif |
 | बोर्ड र्स
at I ha | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou | htry
देश Co
'Wealth
निवास
ntry of
 | ountry o | of Birth
देश
reside
नर्व बैं
tatus | ency | ा।रबी | कर
Tax
 | पहर
ider | वान र
ntifica | शहर (
जन्म
राष्
संख्या
tion I | ity
स्थान
ट्रीयता
umb | Nations
er*
अधिसू
 | वा
T | भारत
in In | मं ला
dia as | स्तावेज
on Do
 | न
ocument
एटीसीए
fied by |
| b. c. d. e. l. 并 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitizen of any c (dual/multiple) (including and the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the search of the s | ल्सी अन्य देश ountry other puntry other puntry other graph of a light of ANY co of ANY co of ANY co of a mandate of a mandate of the abo — प्रमाणि स्रार अपन | के नागरिक r than Indi r than Indi r than Indi r d)? के अलाव country of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation of the second representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation representation repre | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई टे
other tha
देश के दे
s other th
सका पता
who has a
n टेली
हाँ है ते
ions is a
घोषित
 | देश है? n India? n India? with the first that an address in first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first | सी हैं? शिक्षाहर है? है। भाग ख ease fill I | #\tilde{\tau} Part B | प्रत्यक्ष
certif |
 | बोर्ड र्स
at I ha | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou | htry
देश Co
'Wealth
निवास
ntry of
 | ountry o | of Birth
देश
reside
नर्व बैं
tatus | ency | ा।रबी | कर
Tax
 | पहर
ider | वान र
ntifica | शहर (
जन्म
राष्
संख्या
tion I | ity
स्थान
ट्रीयता
umb | Nations
er*
अधिसू
 | वा
T | भारत
in In | मं ला
dia as | स्तावेज
on Do
 | न
ocument
एटीसीए
fied by |
| b. c. d. e. 1. 前· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitzen of any c (dual/multiple) (includial art your Country of b क्या आपका जन्म दे Is your Country of b क्या आप भारत के दिल्ला के स्वा आपके पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आपका भारत है Is Your address or to art your answer to any Jndertaking: आरएस नियमों के अनुष्ठानिता करता हूं कि अमिणित करता हूं कि वी कोई भी महत्वपूर्ण र | edi अन्य देश ountry other g Green Cai rth is any sterior a property sterior a property a mandate c of the abo — प्रमाणि स्सार अपर्न (Central Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentile Bit Gentral Gentral | के नागरिक r than Indir than Indir (1)? के अलाव country of the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same a | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई दें
other tha
देश के दें
other th
प्रका पता
who has a
ा टेलीफ
itside Ind
हाँ है ते
ions is a '
घोषित
of Direc
र्मि में दी
ज नहीं 8
 | देश है? n India? pre निवाs an India? भारत से maddres ila नंबर lia ryYES' pl मैंने भारत की है / tTaxes गई जान | सी हैं?
बाहर है?
है।
भाग ख
ease fill I
(CBD)
कारी औ
जिससे | भरें। Part B र केंद्रीय (7)/Rese | प्रत्यक्ष
certif
rve Ba
रा प्रदान | कर :
fy th
न कि
 | बोर्ड र्स
at I ha
of Indi
ए गए उ | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cour
in all self-
in all s | htry
देश Co
Wealth
निवास
ntry of
lared
in thi
स्तावेर
रिपोट | ountry of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta | of Birth
देश
नर्व बैं
tatus
ard.
य मेरे | h | गारबी
per :
तिम
ल्यांग् | कर
Tax | पहरू
ider
ical
और
 | चान र
ntifica
। इस
। इस
र विश्व | ् शहर (
जन्म
<u>राष्ट्र</u>
संख्या
tion r | i में ;
A/C
के अन् | Nationa
er*
अधिसू
RS ri
jसार, | वित
चित
ules
 | भारत
in In | में ला
dia as
और पृ | र्सावेज्
on Do
I एफ
notif
of है द | न
ocument
एटीसीए
fied by
और
मैंने
mation |
| b. c. d. e. 1. 详· tfl: Gc 2. 详! tth | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitizen of any c (dual/multiple) (including the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t | स्त्री अन्य देश ountry other g Green Can rth is any rent is any rent is any of ANY co of ANY co of ANY co of the abo — प्रमाणि स्तार अपनं // Central खाता कोल opening held any | के नागरिक r than Indir than Indir (1d)? के अलाव country of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई ं
other tha
देश के द
o other th
ited of the
iteside Ind
iteside I | देश है? n India? pre flais an India? भारत से भारत से कि कृपया भैंने भारत की है / t Taxes ruful है porting
 | सी हैं? ? शबाहर है? है। भाग ख ease fill l (CBD) कारी औ जिससे | | प्रत्यक्ष
certif
rve Ba
रा प्रदा | कर :
fy th
nnk co
न कि
रने यो | बोर्ड र्स
at I ha
of Indi
ए गए ।
ए गए ।
प्य खा
rovid
 | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cour
in a led all all all all all all all all all al | atry
देश Co
Wealth
निवास
ntry of
lared
in thi
स्तावेज
रिपोद | य रिज
my s
ss reg
ज साक्ष
 | of Birtl
देश
गर्व बैं
tatus
ard .
स्य मेरे
खाते :
best | क अ
र सर्व
र सर्व
of r | miरबी
per :
तिम
्ल्यांक् | कर
Tax | पहर
ider
ical
और
 | चान र
ntifica
। इस
। इस
१ विश्व | ् शहर (
जन्म
राह
राह
संख्या
tion r
सबध्
ATC
प्रभा
nd b | i में द
A/C
के अन्
eliei | Nationa
er*
अधिसू
RS r
गुसार,
हो / I o | वित
प्रित
ules
सत्य
 | भारत
in In
, सही | में ला
dia as
और पृ
at the i | ू एफ
notif
f है द
nforr
 | न
प्रटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and |
| b. c. d. e. 1. 前· G. ý sta tha Re 3. 前: | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitzen of any c (dual/multiple) (includial art your Country of b क्या आप का जन्म दे Is your Country of b क्या आप का पारत ते हिए के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के अलिए के प्राप्त के कि के प्राप्त के कि के प्राप्त के कि के प्राप्त के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि कि के कि कि के कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | ल्सी अन्य देश ountry other g Green Can er er er er er er er er er er er er er | के नागरिक r than Indir than Indir than Indir (d)? के अलाव country of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t | हैं,जिसमें ग्रंब
T कोई ं
other tha
देश के द
other th
सिका पता
who has a
T टेलीफ
triside Ind
हाँ है ते
ions is a
I हूं कि [‡]
घोषित
of Direc
र्मि में दी
ज नहीं छि
nd supprial info
 | देश है? n India? pre Flation an India? भारत से nn addres नि नंबर होन नंबर हों किएया मैंने भारत की है / t Taxes ruful है corting orting | ही हैं? बाहर है? हैं। भाग ख ease fill l (CBD) forth औ जिससे docum n/docu | मरें। Part B र केंद्रीय गुएस रिख्ताकार प्रस्ति हो। | प्रत्यक्ष
certif
रण्ट Ba
रा प्रदा
गोर्ट कर
अviden
aat ma
सके तह | कर र
 | बोर्ड र्स
at I ha
f Indi
ए गए :
ग्य खा
rovid
ffect t | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
a (RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse | भारती
भारती
larethi
स्तावेर
स्तावेर
रिपोर
र अधि
 | ा का :
r Tax r
my s
is reg
sis reg
o the
ont/ca | of Birth
देश
नर्व बैं
tatus
ard.
य मेरे
खाते :
best
tego
के नि | h ency | गारबी
per
तिम
ल्यान्
tion | कर
Tax
आई
appl
ज्ञान
of
 | पहर
ider
siter
अर्थ
वर्गी
wleco | चान र
ntifica
i इस
ble F.
r विश्र्य
dge a
acco | शहर (
जन्म
राष्ट्र
संबंध
ATC
प्रमा
nd b
bunt | ity
स्थान
ट्रीयता
numb
A/C
वित ह
elici
at a | Nations er* अधिस् RS r पुसार, gसार, US
 | चित
ules
सत्य
(con
Rep | भारत
in In
, सही
ify that
rrect a | में ला
dia as
और पृ
at the
le acc | ू एफ
notif
mf है र
nforn
omple
count
 | ज
yटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति |
| b. c. d. e. 1. 第 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा ितिर you Clitizen of any c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includi | ल्ही अन्य देश ountry other g Green Can er History of ANY co out # # # # # # # # # # # er History of ANY co out # # # # # # # # # er History of ANY co out # # # # # # # er History out # # # # # # er History out # # # # # er History out # # # # # er History out # # # # er History out # # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er History out # # er | के नागरिक r than Indir (1d)? के अलाव country of the Mary intry/lies untry/lies holder with the marker out of the marker out of the marker out of the marker out of the marker out of the marker out of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker of the marker o | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई ंट
other tha
देश के दे
sother th
सका पता
who has a
m टेलीफ
tiside Ind
हाँ हैं ते
ions is a
चोषित
of Direc
र्मि में दी
ज नहीं छि
n त्रंड अप
ial infe
ial infe
ial infe
ial infe
या इसी
 | देश है? n India? कर निवा
कर निवा
आ India? भारत से
भारत से
भारत से
के क्या
में कृपया
मैंने भारत
की है /
t Taxes
गई जान
ज्यासां है
ज्यासां
ज्यासां
र सेरे खा
तरह की | सी हैं? बाहर है? है। भाग ख ease fill I (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu | मरें। Part B र केंद्रीय ()/Rese र मेरे द्वा यूएस रिष् entary (ment th हूं कि इन् ig में केंद्र | प्रत्यक्ष
certif
rve Bar
गोर्ट कर
vviden
lat ma
सके तह | कर व
fy th
ank o
न कि यो
ace p
pay af
बहत ब
यथक्ष व
 | बोर्ड र्स
aat I ha
ff Indi
ए गए न
ग्य खा
rovid
ffect t
नाए गा
र बोर्ड
बैंक क | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
hallslight
के दिविष्ण
मध्येन दे
ते / अन्य
ed by m
he asse
प्र आयकर
पीवीडी | भारती
विश्व
Co
Wealth
निवास
निवास
निवास
शिपाद
शिपाद
हिंदी
स्वादे
रिपोद
हिंदी
स्वादे
रिपोद
हिंदी
स्वादे
रिपोद
हिंदी
स्वादे
रिपोद
हिंदी
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वादि
स्वाद
स्वादि
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्
स्वाद
स्वाद
स्वाद
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स्
स् | य रिष्
my s
is reg
ज साक्ष
o the
ent/ca | ज Birtl
देश
नर्व बैं
सर्वात:
य मेरे
छोते:
tego
के नि | क अ
s as
t सव
का मृ
c of r
riza
नेयमों
री एर
पड़ | गारबी
per
ल्यान
ल्यान
और
जैसि
 | Reside
कर
Tax
आई
appl
ज्ञान
/
Knov
of :
v सरव
यों क | पहरू ider डारा ical vlec the ant I un | ा इस
ttiffea
ा इस
t विश्व
करण
dge a
acco
द्वारा
देशी
nders | शहर (
जन्म
राष्ट्र
संख्या
tion i
संबद्ध
सम्बद्ध
प्रमा
nd b
bunt
जारी
खाता
 | ity
स्थान
द्वीयता
uumb
A/C
वित ह
eliet
at a
दिश | Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Natio | वित
प्राप्टि
चित्र
प्राप्टि
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य
लिन | भारत
in In
, सही
ify this
ortab
हे अनुअधिनि | में ला
dia as
और पृ
at the
and co
le aco
सार आ
यम एप
I auth
 | ू एफ
notif
र्ण है र
nform
mple
count
वासीय | ज्ञ
ocument
एटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as |
| b. c. d. e. 1. 前 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा कि Are you Chizen of any e (dual/multiple) (includial city and in a series of the properties of t | स्त्री अन्य देश buntry other g Green Can rth is any remain about the first any a mandate control and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remain and the remai | के नागरिक r than Indir than Indir (1d)? के अलाव country of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s | हैं,जिसमें ग्रंब
Table Time Time Time Time Time Time Time Tim | देश है? n India? pr Flaman India! मारत से m addres मारत से f कृपया मैंने भारत की है / t Taxes गई जान प्राया है oorting ormatio र अधिकृ र मेरे खा तरह की
 | सी हैं? बाहर है? है। भाग ख ease fill! (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu त करता ते के संब | मरें। Part B र केंद्रीय ()/Rese event and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | प्रत्यक्ष
certifi
vve Ba
vviden
lat ma
सके तह
तीय प्रत्य
the grant
the gran | कर र
fy th
nnk or
न कि
रने यो
nce p
al
sea बन्ध
यक्ष व
चार्चीन
uide | बोर्ड र्स
at I ha
f Indi
ए गए:
rovid
fect t
नाए ग्र
 | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
में
बीडी टी
ve dec
a (RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
र आयक
सीडी
गे विवरण
ssued b | HITY AND THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE | य रिप
my s
is reg
of the
of the
of the
Gov | जि Birth
देश
नर्व बैं
संatus
ard.
च्या मेरे
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! | क अ
ह as
ह सर्व
का मू
ट of r
ruriza
पड़
पड़
 | गारबी
per
लिम
ल्यान
लिप
संकर्जे सि
संकर्जे/RB | Reside
कर
Tax
आई
appl
ज्ञान
(nov
of t
सर
यों क | पहरू ider हारा ical wlec the or I un the | वान र
ttifica
i इस
ble F.
t विश्व
dge a
acco
द्वारा
देशी
nders
matte
 | शहर (
जन्म
राष्ट्र
संबंध्या
tion i
संबंध
ATC
प्रभा
nd b
bunt
जारी
खाता
stanceer, d | ity_
स्थान
ट्रीयता
umb
में ;
A/C
के अन्
वित ह
eliet
at a
दिशा | Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Natio | वित
प्रिक्त
प्राटेश
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य
सत्य | भारत in In , सही ify the ortab
 | में ला
dia as
और पृ
at the i
and co
le acc
सार आ
यम एप
I auth
reside | ू एफ
notif
र्ण है द
nforr
omple
count
वासीय
ovelte
Drize | न
एटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as
I status |
| b. c. d. e. 1. 首· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा िति evou Clitizen of any c (dual/multiple) (including the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t | स्त्री अन्य देश ountry other g Green Can reth is any arreth is arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth arreth a | के नागरिक r than Indir (1d)? के अलाव country of than Indir (1d)? के अलाव country of the Indir (1d)? In अच्या untry/lies untry/lies in the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the Indir (1d) of the | हैं,जिसमें ग्रं
a
T कोई ं
other tha
देश के दे
s other th
सका पता
who has a
m टेलीफ
tiside Ind
हों है ते
ions is a
चोषित
of Direc
र्मि में दी त
म नहीं छि
nd supp
ial info
या इसी
t, Rules
n, the B
Agenc
 | देश है? n India? pre Flatian Indias भारत है भारत विद्याले मारत है जिस्मा विद्याले मारत है जिस्मा विद्याले मारत है जिस्मा विद्याले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले स्वाले | ही हैं? बाहर है? हैं। भाग ख ease fill I (CBD) जिससे docum n/docu त करता ते के संब | भरें। Part B र केंद्रीय ()/Rese र मेरे द्वा यूएस रिख् entary द ment th हूं कि इन् | प्रत्यक्ष
certif
rve Ba
रा प्रदा
मेर्ट कर
शोर्ट
शोर्ट कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शोर कर
शेर कर
शोर कर
शोर कर
शेर कर
शेर कर
शोर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर कर
शेर क
शेर क
शेर क
शेर क
शेर क
शेर क
शेर क
शेर क
श
शेर क
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श
श | कर द
fy th
acce p
al acce p
au acce p
au acce p
au acce p
au acce p
acce acce acce acce acce acce acce
acce acce
 | बोर्ड र्स
क्या I ha
ए गए च
ग्य खा
प्राप्त
विंक क
बिंक क
lines i
ls in r | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
मेबीडीटी
ave dec
a (RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by ru
he asse
र आयकः
र सीबीडी
विवरण
ssued b | भारती
विवास
भारती
विवास
विवास
स्वावे
रिपोद
क्षां इ. ए
इ. इ. | य रिष्
my s
is reg
ज साक्ष
र्ट पर र
o the
ent/ca
नियम
Gov
Gov
 | ज Birth
हेश
जर्व बैं
tatus
ard.
च्या मेरे
छाते :
best
tego
के नि
सरका
करना
ernn
unt (
ernn | ency क अ s as t सव of r oriza rapi पर् u ency | गारबी
per
ल्यां
लगु I
tion
और
संकल्प
(सक्त | कर Tax आई appl ज्ञान कन/ Knov of t सरव | पहन्
ider
ical
ंवर्गी
when
the
on a
lun
the
pre
 | वान र
tutifica
l इस
ble F,
t विश्व
dge a
acco
द्वारा
देशी
nders
scrib
tts (I | शहर (
जन्म
राष्ट्र
संख्या
संख्या
संबंध
ATC
प्रमा
nd b
bunt
जारी
खाता
हां (
GA) | िity
स्थान
द्वीयता
A/C
के अन्
वित ह
elief
at a
दिशा
t कर
l, acl | Nations er* अधिसू RS r f true US ानिर्देश अनुपा know ding
 | चित
ules
सत्य
सत्य
हिंदा
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
स
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
स
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम्य
साम
साम्य
साम्य
साम्य
साम्
स
साम
साम्य
स
साम्
स
स्
स
स्
स
स्
स
स
स्
स
स्
स
स
स्
स
स्
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | भारत
भारत
in In
, सही
ify tha
ortab
अधिनि
ge ann
the
Centra
Fore | में ला
dia as
और पृ
at the i
le acc
यम एप
d auth
ll Boa
ign Ac | ू एफ
notif
of है र
nforr
mple
count
arसीय
ervelx
rential
 | एटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
म स्थिति
सीए और
that as
I status
Toirect
nts Tax |
| b. c. d. e. 1. ## GG 2. ## sta tha Re 3. ## Ta Ca 4. ## Ta | क्या आप भारत के अलावा कि Are you Chizen of any e (dual/multiple) (including including and including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including including inclu | स्ती अन्य देश ountry other g Green Can er History of ANY co of ANY co of ANY co of ANY co of the abo — प्रमाणि (सार अपने (Central खाता खोल of the abo — प्रमाणि (सार अपने (Central खाता खोल जिल्ला अन्य मान स्तीआरएर income tipulate of CO ye of CO ye of the co of the abo — प्रमाणि (सार अपने (Central खाता खोल जिल्ला हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो | के नागरिक r than Indir than Indir (1d)? के अलाव country of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई ं
other tha
देश के दे
cother tha
देश के दे
cother tha
प्राका पता
एका पता
एका पता
हाँ है ते
चिकार के कि
चिकार के कि
चिकार के कि
चाई कि
ज नहीं छि
nd supprial info
जा हूं औ
चाइसी
दे, Rules
n, the B
Agenc
on Rep
ौ में दे दी
 | देश है? n India? For Flant an India? पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से पारत से | सी हैं? बाहर है? है। भाग खease fill! (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu त करता त करता कोई अन्- hereun y have omply Standan क्षारित ज | मरें। Part B र केंद्रीय ()/Rese iv भेरे हा यूएस रिं entary coment the general dearend to repowith the dis (CR. In-rapids) | प्रत्यक्ष
certif
cve Ba
rt प्रदान
मेर्ट कर
eviden
aat ma
the g
rt the c
obligd
के साथ
के शाव | कर र कि प्री कि प्राप्त कर विकास के प्राप्त कर कि प्रोप्त कर कि प्राप्त | बोर्ड र्स
f Indi
f Indi
ए गए
:
गय खा
ताए ग
हर्ने के क
lines i
ls in r
ns as y
v
थ भे रे हं | देश Cour
जन्म का
Source of
Cou
केर
Cou
मार्थन द
ते / अन्य
केर
भी बीडी
विवरण
ssued b
espect to
oper the
her sim
first प्रदा | भारती
विश्व (Wealth
निवास
निवास
तिवास
विवास
विवास
स्तावेद
रिपोद
हो या
की रि
yy the
of my
the
formater
illar a | य रिष्
my s
ss reg
o the
ent/ca
Gov
acco
Gov
!
 | र्ज Birth
विदेश
जर्व बैं
tatus
ard.
खाते :
best
ttego
के नि
सरका
unt (
ernn
eernn
eme
इस्ताव | ency क अ s as j t सव or roriza rani री ए पड़ nent. (s) as contracts. | गारबी
per
र्ल्याम्
लग I
tion
और
सकत्
श्रीहि
साक्ष्य | कर
Tax
आई
appl
ज्ञान
र्का
र सर्ग्यों के
I in tregrees | पहरू
ider
give
(वर्गी
wlec
the
bi वि
I un
the pre
mer
 | वान र
tiffea
। इस
oble F.
t विश्व
करण
dge a
acco
grit
ders
matte
scrib
ts (I- | संबंध
संबंध
संबंध
ATC
वास व
प्रमा
nd b
bunt
जारी
खाता
ged f
GA) | ity
हीयता
numb
A/C
के अन्
वित ह
elief
at a
दिश
I कर
I, acl
epen
orma
in r | Nationa er* अधिसू RS ri पुसार, हो / I o f true US सन्दिः अनुपा know ding tat to t espec | वित
प्राटिश
सत्य
certi
, con
Rep
ener :
lupo
he C
 | भारत
in In
in fify that
cortab
के अनुपुर
अधिनि
ge and
n the
Centra
Fore | में ला
dia as
और पू
at the e
le acc
le acc
la uth
residu
l Boa
ign A | ू एक
notification
mple
count
aretial
rd of
cour
 | प्टीसीए
fied by
और मैंने
meta and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as
I status
'Direct
nts Tax
र फ़ाइल |
| b. c. d. e. 1. मैं सी: GG 2. मैं ! ऐरं stat tha Re 3. मैं : Ta CC 4. मैं के | क्या आप भारत के अलावा िति evou Citizen of any e (dual/multiple) (includial citizen of any e (dual/multiple) (includial citizen of any e (dual/multiple) (includial citizen of any e) over Tax resident क्या आप के पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आप के पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आप के पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आप के पास पीओए Do you have POA or outside India? क्या आप के पास के अलावा है हि जिए के पी कि पी हैं जिए के पास के अलावा है कि जी कोई भी महत्वपूर्ण रास्वा को काई भी महत्वपूर्ण रास्वा जिस्सा / समझती हूं र्या समझती हूं र्या समझती हूं र्या समझती हूं र्या असमें निधारित मान्य रिपोर्टिंग मानकों r the provisions of d/or other criteria : xes (CBDT) or othompliance Act (FA' खाता खोल ने के फॉर्म प्रकट करने और रीसे | ल्ही अन्य देश ontry other general services any services and the services are services as a mandate of ANY co. The services as a mandate of the about the services are services as a mandate of the about the services are services as a mandate of the about the services are services as a mandate of the about the services are services as a mandate of the about the services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are services are service | के नागरिक r than Indir than Indir than Indir (10)? के अलाव country of than Indir (10)? के अलाव country of that is a second of the than Indir (10) of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the than Indirect of the Indirect of the Indirect of the Indirect of the Indirect of the | हैं,जिसमें ग्रंब
T कोई दे
other tha
देश के दे
s other th
item unit unit
who has a
n टेलीफ
itside Ind
हाँ है ते
ions is a '
li हू कि '
हाँ है ते
ions is a '
li हू कि '
हाँ है ते
ions is a '
li हू कि '
हाँ है ते
त नहीं छि
nd supprial info
पा इसी
t, Rules
n, the B
Agenc
on Rep
ते में से हारी लेता
 | देश है? n India? कर निवाः कर निवाः का India? भारत से भारत से भारत से भारत से भारत से कि कृपया भैंने भारत की है / t Taxes गई जान् प्राया है porting prinatio स से कि made t sank ma ies to coorting; tiरा हस्ता हां हिस्ता | सी हैं? बाहर है? बाहर है? हैं। भाग ख ease fill I (CBD) (both a) जिससे docum n/docu त करता ते के संब कोई अन् chereun hy have omply Standar igiिरत ज | मरें। Part B गरें। Part B र केंद्रीय ए/Rese र मेरे द्वा यूएस रिख् entary of ment the हूं कि इन्हें ध्व में केंद्र य व्यवस्थ der and to repo with the rds (CR) In- कारी : | प्रत्यक्ष
certifi
rve Ba
रा प्रदा
मोर्ट कर
प्रांतिक प्रत
ता के आ
हार्रा the c
c oblig
sh साथ
sponsi | कर र
fy th
fy th
न कि
रने यो
pay al
sea बग्
थांधीन
uide
detai
atio
l/or;
iibilit
 | बोर्ड र्स
at I ha
of Indi
ए गए :
ग्य खा
rovid-
fect t
नाए गा
राज्य खां
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हो | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
केर
Cou
मार्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
स्वीडी
ते विवरण
ssued b
espect c
oer the
her sim
झारा प्रदा | मारप्र—
देश Co
Wealth
निवास
निवास
मारती
विवाद
शिया
की रि
शु the
of my
the
of the
of my
the
of my
the
of my
the
of the
of the
of the
of my
the
of the
of य रिष्
my s
sis reg
of the
ent/ca
नियम
Gov
acco
Gov
trang
sis reg
of the
first sis sis reg
acco
 | र्व शिला
विश्व
कर्व बैं
सर्वातः
अप्रकार
के नि
सरका
unt (
ernn
unt (
ernn
unt (| क अ
s as j
t सर्व
का मृ
t of r
oriza
nent.
(s) as
nents.
वेज र | गारबी
pper
लेपा
जोरिस
सकत्
/RB
s per
al Ag | कर Tax आई appl ज्ञान कन/ (nov of f t सरः यों क | हारा
ider
हारा
ical
अर्थ
वर्गी
wlec
the
pre
pre
mer
 | ा इस
tiffica
। इस
toble F.
for one
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
deco
givi
de
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
gi
deo
givi
deo
gi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
deo
givi
de
deo
givi
de
deo
givi
de
deo
givi
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de | संबंध प्राप्त के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्व | ity
स्थान
में द्वीयता
umb
A/C
वित ह
वित >व
व
ह
व
ह
व
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह | Nationa er* अधिष् RS rr पुसार, हो / I o f true US सिन् धानिदेश | चित
ules
सत्य
certi
, con
Rep
en =
!ledg
upo
cet of
 | भारत in In In In In In In In In In In In In In | में लाग
dia as
और पृ
tat the i
le acc
le acc
la auth
residu
la Boa
ign Ac
देनों के | ू एफ
notif
ण है व
nforr
mple
count
anसीय
Drize
ential
rd of
rccour | ज्ञ ज्ञ occument एटीसीए fied by और मैंने mation ete and t/Other प स्थिति सीए और that as I status Toirect nts Tax र फाइल e in the
 |
| b. c. d. e. 1. 前、 可称 sta tha Re 3. 前: Ta Cc 4. 前: \$\text{of}\$ | क्या आप भारत के अलावा कि Are you Clitzen of any c (dual/multiple) (including to the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provisions of doro other criteria: says (CBDT) or other provisions of doro other criteria: says (CBDT) or other provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of | हों अन्य देश ountry other g Green Can en Hard of ANY co या मैंडेट घ a mandate है बाहर क lephone in भी प्रश्न व of the abo — प्रमाणि (सार अपने (Central खाता खोल in- का में प्रश्न व क का क क स्वाहर क co f the cab — प्रमाणि (सार अपने (Central खाता खोल in- का स्वी प्रश्न व क क स्वाहर है दिवाहर क स्वी क स्वी अन्य मान सीआरएस income tipulate er Gove हे प्रदान व ट करने की in the ac क मेरे आ कार्रवाई | के नागरिक r than Indir than Indir (1d)? के अलाव country of than Indir (1d)? के अलाव country of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | हैं,जिसमें ग्रं
कोई रं
other tha
देश के दें
sother th
सका पता
who has a
म टेलीफ
iside Ind
हाँ हैं ते
ions is a
चोषित
of Direct
मिं में दी
म नहीं छि
म नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ नहीं छ | देश है? n India? कर निवान an India? भारत से n addres निवान भारत से कि की है / t Taxes गई जान प्रमासा तरह की made t sank ma ies to c sorting ties to c sorti | सी हैं? बाहर है? है। भाग खease fill! (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu त करता त करता त करता त करता हार्शनिध्या अध्या ध्य अध्य अध्य अध्य अध्य अध्य अध्य
 | मरें। भनें। | प्रत्यक्ष certificate and the grant the gent the good of the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the grant the gran | कर :
fy th one of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th | बोर्ड सी
fIndi
ए गए :
गण्य खा
गण्य खा
तिहेटा t
नाए गण्
है बैंक क
बिंक क
ब
ब
ब
ब
ब
ब
ब
ब
ब
क
क
क
ब
ब
क
ब
ब
क
क
ब
ब
क
ब
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
मिबीडीटी
tive dec
a (RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
ए आयक्फ
सीबीडी
विवरण
ssued b
espect o
per the
her sim
द्वारा प्रदा
eclare,
e docur
या भविष्ठ
 | htry
देश Cc
Wealth,
निवास
निवास
निवास
मारती
विवास
की रिपोर
की रि
पुर
की रि
पुर
की रि
पुर
की रि
पुर
की रि
पुर
की रि
पुर
की रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
पुर
को रि
स्
को स्
को स
को स
को स
को स
को स
को स
को स
को स | य रिज
my s
is reg
ज साक्ष
ट्रै पर र
Gov
acco
Grap
! गए
See ar
with see | हिंश
हिंश
जर्व बैं
स्वाते
छें
छें
छें
छें
छें
छें
छें
छें
छें
छे | क अ
s as i
t सर्व
का मू
द of r
oriza
i
v पड़
(s) as
nents.
(s) as
cecert | mivबी per ; लिम ्ल्यां my I tion और सकत् /RB ss pe: alA; thisa
 | बार्च कर Tax आई appl ज्ञान कर / Know of fi है I in true of fi या ided chao cact know act kno | हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा | ह्यान र
। इस
ble F.
ए किस्प
dayer
dayer
acco
givi
nders
matte
scrib
to fay
matte
scrib
of day
me or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of or
of of or
of of or
of of of of or
of of of of or
of of of or
of of of of or
of of of of or
of of of of of of or
of of of of of of or
of of of of of or
of of of of of of or
of of शहर (जन्म
जन्म
प्राप्त
संबंध्या
संवंध्या
तार्थ के अपना
जारी
खाता
हाता
हाता
हाता
हाता
हाता
हाता
हाता | ा में दिशा
वित ह
elief
at a
दिशा
किर
I कर
I कर
I कर
I कर
I कर
I कर
I कर
I क
 | Nations er* अधिसू RS ri gसार, हो /1। f true US स्ति us स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति | चित
ules
सत्य
certi
तिन्
सिर्
शिवि
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रमुख्य
प्रम्
प्रम्
प्रम्
प्रम्
प्रम्
प्रम्
प्रम्
प्रम
प्रम | भारत in In In In In In In In In In In In In In | में ला
dia as
और पृ
at the
le acc
le acc
la auth
resid
ign Ad
ç take
v take
v take | ू एफ
notif
र्ण है र
nform
mple
count
वासीय
मार्च
of
cour
भीत्र
place
corre
के संच् | एटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as
I status
Direct
nts Tax
v फाइल
e in the
ect.
चालन में
ate my |
| b. c. d. e. 1. मैं सित्रिः दे: ऐसं state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the state that the | क्या आप भारत के अलावा िति पर you Chizen of any c (dual/multiple) (includial city and the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties o | ल्ही अन्य देश ontry other general general and a fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fandate fanda | के नागरिक r than Indir than Indir than Indir (1d)? के अलाव country of than Indir (1d)? के अलाव country of the Indirect of the Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect of Indirect | हैं,जिसमें ग्रंब
T कोई दे
other tha
देश के दे
c other th
प्राका पता
who has a
of the that
हाँ है ते
ions is a '
हाँ है ते
जिल्हा
को चित्र
को चित्र
जिल्हा
जिल्हा
को
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था
स्था | देश है? n India? कर निवान्त का India? मारत से In addres निवान्त के India? मारत से In addres ने के मारत के हैं / t Taxes गई जान्द्र पाया है oorting ormatio हिं I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हे (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un हो (I un | सी हैं? बाहर है? है। भाग ख ease fill! (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu n करता ते के संब कोई अन्- thereun y have omply 'S standar असिर ज dertak nd sign काइनेंस होगी। be will | मरें। Part B गरें। Part B र केंद्रीय ए केंद्रीय एएस रिप् entary of ment the हूं कि इन् ंच में केंद्र य व्यवस्था dto repo with the red by m तैं क को ग also ag hin its r | प्रत्यक्ष
certifi
vve Ba
रा प्रदान
गोर्ट कर
शिय प्रदेश
सके तह
the c
oblig
sponsi
e as w
sponsi
e as w
gree th
 | कर र कि प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त के प्राप्त कर के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्र के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप | बोर्ड र्स
at I ha
f Indi
ए गए :
ग्य खा
rovidi
दें क क
ilines i
lis in r
ns as
sin th
i अभी
i अभी
restric | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
केर
Cou
केर
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
श्र आयक
समर्थन हिं
तो विवरण
ssued b
espect o
per the
her sim
झारा प्रवाद
ed locur
या मिब्स्
ed by m
the asse
श्र आयक
समर्थन हिं
समर्थन हिं
सम्बर्धन हिं
समर्थन हिं
समर्थन हिं
सम्बर्धन हिं
समर्थन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर्धन हिं
सम्बर हिं
सम्बर्धन हिं | htry
देश Cc
Wealth,
निवास्
निवास्
नाराजी
lared
in thi
स्तावेद
रिपोत
e is t
sssme
र अधि
टी या
निक्प्
disclo
menta
iis clo
निक्प
disclo
menta
iis clo
निक्प
disclo
menta
iis clo
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
 | प्य रिष्
my s
ss reg
of the
ent/ca
नियम
Gov
acco
Gov
acco
gov
acco
gov
acco
gov
acco
acco
gov
acco
acco
gov
acco
acco
acco
gov
acco
acco
acco
acco
acco
acco
acco
ac | हेश
देश
जर्व बैं
tatus
बाते :
best
tego
के नि
ernn
unt (
ernn
ider
iden
if किस्
y ma
ttion | क अ
क का मृ
का पड़
का म्
पड़
nent.
(s) a:
a do प
ecert
nce pf
file pf
ateri
s of | गारबी
per
जित्म
लियां
शिर्म
संस्कृ
शिर्म
माहिय
भीरियां
भीरियां
भीरियां
भीरियां | कर Tax आई appl इान कन/ Knov of : t सरवं tif है I in the green भें य
 | हारा
ical
और
वर्गी
शिक्षा
हारा
ical
गिक्षा
शिक्षा
हारा
शिक्षा
हारा
शिक्षा
हारा
शिक्षा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हारा
हा | ा इस
ा इस
हिस्स
करण
ट्वेशी
द्वारा
देशी
matta
scrib
thts (I
i
ई प्रम
0 day
me or
or ta | शहर (जन्म
राष्ट्र
संबंध
ATC
ग्रामा
nd bount
जारी
खाता
stance
ed f
GA)
rifa
gaila
me | िity
स्थान
द्वीयता
numb
I में :
A/C
वित ह
elici
at a
दिश
I कर
in ro
ra गा
y ch
ny cc
I कर
ppro | Nations er* अधिस् RS r पुसार, हो / I e true US जित्रे अनुपा known espec
 | चित
ules
सत्य
स्टिश्
साम्
सिर्धा
स्टिश्
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा
सिर्धा | भारत in In , सही ify the rect a sortable of sary sale for the contract of the rect and the rect and the rect are the rect at many becomes the rect and the rect are the rect are the rect and the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect are the rect | में ला-
dia as
और पू
at the e
le acc
le acc
la the
residual
Boa
danthe
residual
danthe
residual
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
danthe
da
danthe
danthe
da
danthe
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da | ू एफ
notif
ण है द
nforr
arसीय
count
artlar
d of
ccour
भीतर
place
corre
के संबंध
 | ज्ञा क्रिक्श कर केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र |
| b. c. d. e. 1. 第 · th Go stha Re 3. 第 · Ta Co 4. 第 · stha Frication Ta Co 4. 第 · stha stha co 4. 第 · stha stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha co stha stha co stha stha co stha stha co stha stha stha stha co stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha stha sth | क्या आप भारत के अलावा कि Are you Clitzen of any c (dual/multiple) (including to the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provisions of doro other criteria: says (CBDT) or other provisions of doro other criteria: says (CBDT) or other provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of | सी अन्य देश ontry other ge Green Can and a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can a can | के नागरिक r than Indirect than Indirect (1)? के अलाव country of the Mary introvices of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) of the Indirect (1) o | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई दे
other tha
देश के दें
sother th
में sother than
में sother than
हैं को के लिए
चोषित
में दी के
चोषित
में दी के
मां इसी
t, Rules
n, the B
Agenc
Agenc
on Rep
हैं पे लिल
हैं है तो
चोषित
हैं कि व्याध्या
मां देशी
चोषित
हैं कि
व्याध्या
स्वाध्या
स्वाध्या
स्वाध्या
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध्य
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्वाध
स्व | देश है? n India? कर निवा; कर निवा; कर निवा; वा India? भारत से भारत से निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निव; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; निवा; नि | सी हैं? बाहर है? है। भाग ख ease fill I (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu a करता ते के संब कोई अन्- chereun by have standar श्विरित ज ndertak nd sign काइनेस होगी । be with her acti हूं जो वि | मरें। Part B र केंद्रीय ए केंद्रीय ए सेंदे द्वा पूएस रिष्कार्य व्यवस्थ der and to repo with the rds (CR. । जिस्कारी : e the re ed by m बैंक को । I also ag hin its r on as m | प्रत्यक्ष
certif
rve Ba
रा प्रदार
पेटांचिला
at ma
सके तह
पेटांचिला
के
साथ
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensis
spensi
spensi
spensi
spens
spensi
spensi
spensi
spensi
spensi
spensi
spensi
spensi
spensi
s | कर : fy th nak co न कि ययक्ष क ययक्ष क ययक्ष क ययक्ष क प्राचीन uide ide ide ide ide ide ide ide ide ide | बोर्ड र्स
at I ha
of Indi
ए गए :
irrovid
ffect t
ines i
lines i
lines i
any of
y to d
yy to d
yy to d
i appra
fail | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
मेबीडीटी
ave dec
a (RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
स्वीडी
विवरण
ssued b
espect o
per the
espect of
coer the
espect of
coer the
ther sim
झारा प्रदा
ed ctions in
popriate is
a द्वारा म
 | htry
देश Co Wealth
निवास
मारती
dared
in thiv
स्तावें
र अधि
टी या
की रि
थां की रि
थां की पा
की रि
थां की पा
मां मुंग
disclo
on the v
menta
ilisclo
on the v
fifthe
fifthe
it fifthe | य रिष्
my s
is reg
of the
of | जि Birth देश
विकास करें
जिल्हा के दिवस के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | क अ
क s as i
र सव
का मृ
र of r
oriza
नेयमों
री ए
पड़
(s) a:
nents.
(s) a:
ence p
सी भी
ateri
s of r | mivell per sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the same sifter with the sa | कर Tax आई appl इान र्राल कर यों के विदेश के ति के ति acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second
acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the second acceptate the seco | हारा
ical
wlec
the
in 30
in 30
by 1
few
now
total
in 30
in | हान र
इस
ble F.
र विश्व
dge a
acco
देशी
nders
matti
s
ह प्रम
0 day
or to
or ta
i
acco | शहर (जन्म
राष्ट्र
सर्वष्ट्र
सर्वष्ट्र
सर्वष्ट्र
प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स्वारा
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | ity
स्थान
हीयता
numb
A/C
के अन्
वित ह
elici
at a
l, acl
epen
in ro
ra
v ch
ny cc
I कर
now
pprc
anow
pprc
anow
pprc
anow
pprc
anow
pprc
anow
pprc | Nations er* अधिसू RS r पुसार, तो / I o f true US आनुपा know dding ange ertific ने में f or in priat me wit ण यह |
चित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राय
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राथित
प्राय
प्रायित
प्राय
प्राय
प्राय
प्राय
प्राय
प्राय
प | भारत in In सही ify the rrect e ortab see and in the cortab see and in the rect e to a first mark the strong in the true, in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in the strong in | में लाग
dia as
और पृ
चे auth dec
le acc
auth dec
le acc
di auth
residal
ji Aa
v take
v take
v take
auth
v take
ji auth
v take
se
v take
ji auth
v au | ू एफ
notif
f है र
nform
mple
count
वासीय
निप्टीस
orize
श्रीतिक
place
corre
के संव
valid:
ssible
ed ped | एटीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
म स्थिति
तीए और
that as
I status
Toirect
nts Tax
र फाइल
e in the
ect.
चालन में
ate my
e under
eriod.
ाया गया
 |
| b. c. d. e. 1. 前 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा िति पर you Clitzen of any c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includial c (dual/multiple) (includ | स्त्री अन्य देश ontry other gegreen Can the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the about the a | के नागरिक r than Indirect than Indirect r than Indirect reference with the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part of the second part o | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई ंट
other tha
देश के दें
cother th
प्रका पता
एका पता
एका पता
हाँ हैं ते
चिक्रा
चोषित
of Direc
र्मिमें दी
ज नहीं छि
ज हों
र से पेट्ट
उ के पिट्ट
उ अधिकार
ह छ निया
ह छ निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
ह ज निया
 | देश है? n India? The fair an India? मारत से nn addres मारत से nn addres मारत से nn addres में ने मारत मैं ने मारत मैं ने मारत मैं ने मारत मैं ने मारत प्राया है oorting ormatio हूं I un gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a gform a | सी हैं? बाहर है? बाहर है? भाग ख ease fill I (CBD) कारी औ जिससे docum n/docum | मरें। निकार केंद्रीय मरें। निकार केंद्रीय ()/Rese iv भेरे द्वा यूएस रिं entary coment the gi के केंद्र य व्यवस्थ der and to repo with the distance of the re ed by many coment is a finite in the re ed by many coment is a finite is re on as more कैंपिटल led upo | प्रत्यक्ष
certif
certif
certif
certif
de serviden
at ma
सके तह
e soliga
for the certif
e soliga
for the certifi
e solig | कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप्त कर । कि प्राप | बोर्ड र्स
at I ha
f Indi
ए गएः
ग्य खेर्ड
बैंक क
lines i
lis in r
nsany of
a y to d
s in th
sy to d
s in th
y fail
appre
 | हेश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
केर
Cou
केर
केर
केर
केर
केर
केर
केर
केर
केर
केर | मार्ज संप्र
देश CC Wealth,
निवास्तार of
मारती
lared
in thi
स्तारे
रिपोर
ee is t
जी पि
yy the
of my,
illar a
न किए
discle
menta
i में मुख्य
iisclo
o the e | प्य रिष्
my s
is reg
ज साक्ष
है पर र
Gov
acco
Gov
und र
प्रापित
के जात
se an
opera
defic
T विदेश | नर्व बैं
tatus
ard.
खाते:
besto
ernn
unt (
ernn
d re
riden
ic किस्
tion
ienc;
sunk o | कि अ
s as i
t सर्व
का मू
roriza
नेयमों
पड़
nents.
(s) at
tents.
at of r
secert
parts.
at of r
secert
parts.
at of r
secert
at eri
at
at eri
eri
eri
eri
eri
eri
eri
eri
eri
eri | ारबी
per निम्
त्यांका I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
 | कर Tax आई appl ज्ञान ज्ञान र सरक में य withi ided कर्म कर्म है | हारा
icab
अगैर
वर्गी
wlea
the
in 30
pre
mer
in 30
now
bunt
ted/
any | वान र
ntifica
i इस
bole F,
t विश्व
करण
dge a
acco
giरा
nders
matta
scrib
day
me oi
o or ta
recti
बदल
/ cha | संबंध संबंध संबंध संबंध संबंध संबंध संबंध संबंध संबंध संवंध स्वा स्व संवंध संवंध संवंध संवंध संवंध संवंध संवंध संवंध संवंध स् | होयता
इयान
होयता
प्रकर
वित ह
बित ह
बित ह
वित ह
प्रकर
I, acl
spen
orma
in r
r
च कर
I, acl
spen
orma
in r
or
may ce
hony ce
by n
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
or
 | Nations er* अधिसू RS r पुसार, हो / I o f true US जिस्से अनुपा angee ertific angee ertific or in priat or in priat w eitl | चित ules सत्य certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification o | भारत in In In In In In In In In In In In In In | में लान
dia as
और पू
at the i
le act le
le act le
dauth
residu
l Boa
ign Ao
देनों के
v take
mes in
v take
nes in
v take
nes in
julata
ipulata
ipulata
ia or a
 | ्र एक
notif
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातिय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातिय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जाति
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जाति
जाति
जातीय
जातीय
जातीय
जातीय
जात
जाति
जात
जात
जात
जात
जात
जात
जात
जात
जात
जात | म्प्टीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
य स्थिति
तीए और
that as
I status
Toirect
nts Tax
र फाइल
e in the
ect.
ate my
e under
eriod.
ाया गया
d in the |
| b. c. d. e. 1. 前一般的 | क्या आप भारत के अलावा िति evou Chizen of any e (dual/multiple) (includial city and in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the pro | स्ती अन्य देश ontry other general services and the services are the services and the services are the services and the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the services are the servi | के नागरिक r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than Indir r than | हैं,जिसमें ग्रंब
ा कोई दे
other tha
देश के दे
other tha
देश के दि
other tha
हैं की जिल्ला
हाँ हैं ते
ions is a '
हाँ हैं ते
ions is a '
हाँ हैं
ते
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिल्ला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
जिला
ज | देश है? n India? कर निवान्व का India? मारत से भारत सर भारत सर भारत सर भारत सर भारत सर | सी हैं? बाहर है? बाहर है? है। भाग ख ease fill I (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu त करता ते के संब कोई अन् chereun y have omply chereandar saftित ज ndertak nd sign her acti हूँ जो वि at is cal | मरें। Part B र केंद्रीय ()/Rese र मेरें हो यूएस रिं entary (entary (entary (to repo with the ds (CR iii में केंद्र य व्यवस्थ der and to repo with the fin को रा e the re ed by n li also a h iii its r on as m o कैंपिटल led upo करण के BI आयव | प्रत्यक्ष
certifi
certifi
trve Ba
रा प्रदान
मेर्ट कर
रा प्रदेश
सके तह
तिय प्रत्य
सके तह
तिय प्रत्य
के सान्य
क
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद
हिंद्
हिंद्
हिंद
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद
हिंद्
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद | कर न की कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि कार कि | बोर्ड र्स at I ha at I ha f Indi ए गए र वार्ड कि कि का I ha any of a sin th i suffice appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate app | देश Cour जन्म का Source of the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asset the asse
 | भारती
भारती
lared
in thi
lared
in thi
रिपोत
रिपोत
हो या
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की हो
शाम की
शाम की | य रिज
my s
is reg
sis reg
of the
ont/ca
Gov/
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गिर्ट
t opera
defic
t c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f acco
f a | निकास
जर्व बैं
सरकार
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने | क अ
s as s
र सर्व
का मृ
c of r
oriza
त्यमों
रि ए
पड़
(s) as
onent:
ccert
ents. र
ccert
s s of
y y is 1 | ाारबी
pper
तित्तम
ल्यां-
my I
ttion
और
अंति
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श् | अाई appl ज्ञान कन / Cnow of i सर्व संस्कृतिक र cet ke ipda किसी nt of on the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the origination according to the origination according to the original according to the original acc | हारा
ical
site of the
site of | हान र करण deep a according series (I) है प्रम or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate
or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the | सबंध्या
संबंध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
स
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संव
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | िity_ स्थान हीयता प्रमें ; A/C हे अन् वित ह elict at a दिशा कर tl, acl spenn in re त्र गत भा कार to an an an an an an an an an an an an an | Nations Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parke | चित प्राप्त करा के सिर्म के स्वरं के स्वरं के स्वरं के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के सिर्म के स
 | भारत in In , सही ify the cortable sample the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the | में ला-
dia as
और पू
at the e
le acc
le acc | ू एफ
notif
जिल्ला है द
nform
mple
count
वासीय
वासीय
वासीय
के संव
valida
sible
ed pe
ed pe
ed pe
g inte | प्टीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as
I status
Direct
ints Tax
v फाइल
e in the
ect.
बालन में
ate my
e under
e under
e in the
sunder
e in the
sunder |
| b. c. d. e. 1. 第: ft GG 2. 第! ve sta tha Re an Ta Co 4. 第: of ap the sui 7. 如f | क्या आप भारत के अलावा िति पर you Chizen of any c (dual/multiple) (includial city and in the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the p | हों अन्य देश on the property of the general series of ANY construction of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the above of the abov | के नागरिक r than Indir of than Indir of than Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the Indir of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of the India of th | हैं,जिसमें ग्रंब
कोई दें
other tha
देश के दें
sother th
में sother than
हैं अपे के किया
हों है ते
ions is a '
घोषित
of Direct
र्मिमें दी ते
ज नहीं छि
nd supp
ial info
स्या इसी :
t, Rules
n, Rules
Agenc
on Rep
र मेरे हैं
किया
ppening
र केपिटल
अधिकार
e or take
or take
 | देश है? n India? कर निवाः का India? मारत से nn addres न न वर ों हें के प्राप्त मैंने भारत की है / t Taxes गई जान प्राप्त है porting orting orting formatio र अधिकृत र मेरे खा तरह की ह made i sank ma ies to coorting i mate i sank ma i स्माल ह प्राप्त ह हा I un y form a ज स्माल र अलात सर्वा द would c any otl ! सहमत ation th ज के गल नारत सर disclos | सी हैं? बाहर है? बाहर है? है। भाग ख ease fill I (CBD) कारी औ जिससे docum n/docu त करता ते के संब कोई अन्- chereun by have omply Standan स्वरित ज ndertak nd sign be with ner acti हूं जो वि at is cal | मरें। भरें। | प्रत्यक्ष certification of the control of the control of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certification of the certificat | कर र हिy th ank of a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a
fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a fine a f | बोर्ड र्स
at I ha
of Indi
ए गए :
rovid
विंटर t
नाए गां
उर्जे विंट
बैंक क
lines i
s in th
s in r
ns as a
sany of
s in th
i अमी
i अ
i अ
i अ
i अ
i अ
i अ
i अ
i अ
i अ | देश Cour
जन्म का
Source of
कर
Cou
में
कर
Cou
में
कर
कर
कर
(RBI)
समर्थन द
ते / अन्य
ed by m
he asse
साबीडी
विवरण
ssued b
espect of
ber the
her sim
द्वारा भविष्ट
eclare,
e docur
या भविष्ट
का क्रांच के
स्वारा भविष्ट
का क्रांच के
साम्बर्ध के
का का क्रांच के
साम्बर्ध के
का का का का
साम्बर्ध के
का का का का
साम्बर्ध के
का साम्बर्ध के
का सामक्ष भी
on my | भारती
भारती
lared
in thi
lared
in thi
रिपोत
रिपोत
हो या
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की रि
था
की हो
शाम की
शाम की | य रिज
my s
is reg
sis reg
of the
ont/ca
Gov/
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गए र
acco
Gov
rrang
t गिर्ट
t opera
defic
t c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f c
acco
f acco
f a | निकास
जर्व बैं
सरकार
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने
अपने | क अ
s as s
र सर्व
का मृ
c of r
oriza
त्यमों
रि ए
पड़
(s) as
onent:
ccert
ents. र
ccert
s s of
y y is 1 | ाारबी
pper
तित्तम
ल्यां-
my
I
ttion
और
अंति
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श् | अाई appl ज्ञान कन / Cnow of i सर्व संस्कृतिक र cet ke ipda किसी nt of on the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the original according to the origination according to the origination according to the original according to the original acc | हारा
ical
site of the
site of | हान र करण deep a according series (I) है प्रम or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken to great the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the cordinate or taken the | सबंध्या
संबंध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
स
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संवध्या
संव
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | िity_ स्थान हीयता प्रमें ; A/C हे अन् वित ह elict at a दिशा कर tl, acl spenn in re त्र गत भा कार to an an an an an an an an an an an an an
 | Nations Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parket Parke | चित प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा करा करा कि प्राप्त करा करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा कि प्राप्त करा करा करा करा कर कर करा करा करा करा क | भारत in In , सही ify the cortable sample the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the | में ला-
dia as
और पू
at the e
le acc
le acc | ू एफ
notif
जिल्ला है द
nform
mple
count
वासीय
वासीय
वासीय
के संव
valida
sible
ed pe
ed pe
ed pe
g inte
 | प्टीसीए
fied by
और मैंने
mation
ete and
t/Other
प स्थिति
सीए और
that as
I status
Direct
ints Tax
v फाइल
e in the
ect.
बालन में
ate my
e under
e under
e in the
sunder
e in the
sunder |

Capital Small Finance Bank 🔀

AUTHORISED SIGNATORY-2 Y N *लामार्थी स्वामी Bene	ficiary Ow	ner	%	नियुक्ति D	esignation			अनिवार्य फीलड *Fields are Mandatory
ग्राहक ID Customer Id	जन्म स्थ Place of E							वर्गीकरण gorisation
*नाम Name			П			\top		
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक	र्घिति N	/Jarital :	Statu	s एकल	Single	विवाहि	त Married	अन्य Others
*लिंग Gender पुरुष Male स्त्री Female किन्न	ार Transg	ender	*	— राष्ट्रीयता Na	itionality	भार	तीय Indian	 अन्य Others
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General	पछर्ड	ो जाति	ОВС	एस	ा सी SC	एस	ਟੀ ST ☐ ┏	
बोटर ID पासपोर्ट न. Voter ID Passport No.				 पैन कार्ड [PAN [
ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence		आध AADH						
फार्म 60 *धर्म *शैक्षाणिक Form 60 *Religion *Qualifi				रोजगा Occupat				Recent Passport
*पिता का नाम *Father's Name								Size Photo
*HIGI का नाम *Mother's Name								
*जीवन साथी का नाम						$\overline{}$		
*Spouse Name *स्थायी निवास पता								
*Permanent Address					LA	N D	MARK	Signature with Stamp
CITY PINCODE	S	ТАТ	ГЕ	CC	UNT	RY	M	OBILE NO
मेल का पता Mailing Address								
			Щ			Щ		LANDMARK
C 1 T Y P 1 N C O D E ई मेल आइ डी Email ID	s	TAI	ГЕ		D U N T	RY	M	O B I L E NO
MUSITA TURNIN Slah. Měd Měd		ਲੱਖ	\perp	Ř4				
	ाय 🗀	50-5 Lac कृषि	T	> 5 Lac] निवेशित		किराए	अन्य	🔲 कृप्या लिखें
*Source of Funds Salary Pension Business Inco *कुल आय रु. 100 लाख तक रु.100 लाख र	ने 200 लाख				 0 लाख से 500			Please Specify रु. 500 लाख से उपर
*Net Worth Upto Rs. 100 Lac Above Rs. 1 *सी के वाई सी नया मौजूदा कोई परिवर्तन नः	हीं 🔲	मौजुदा	में परि	रेवर्तन सी	ve Rs. 200 La ा के वाई सी नंब		00 lac	Above Rs. 500 Lac
*CKYC New Existing No change कपनी में 10% से अधिक शेयर पूजी रखने वाले और पार्टनरशिप में		xisting U धिक रखन्			CKYC No. कों की पहचान	्रा और पते		 ठी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी।
Identity & Address documents of all shareholders holding more	re than 109	% share c	capital	in the compa	any and more	than 10	% in a partnersh	nip will be mandatorily required
भाग A PART A	हा Yes	ना No					Tग B PART B	
 वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं,जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल हैं? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)? 				कर निवास के लिए	पता / Address for	Tax Residen	ice शहर City	
b. क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India?				देश Country				place of birth धन का स्रोत /
c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India?				जन्म का देश Cou Source of Wealth_				Nationality
व्या आपके पास पीओए या भैंडेट धारक है जिसका पता भारत से बाहर है? d. Do you have POA or a mandate holder who has an address			1	कर निवास Country of	का देश Fax residency	कर प Tax i	पहचान संख्या identification numb	कर पहचान दस्तावेज Der* Tax identification Document
outside India? e. वया आपका भारत के बाहर का पता या टेलीफोन नंबर है। S Your address or telephone number outside India			┨					
यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो कृपया भाग ख			1			1		
If your answer to any of the above questions is a "YES' please fill Undertaking:			_ L					
1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने भारत सरका								
सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है / I Government of India/Central board of Direct Taxes (CBD) 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी अं	T)/Reserve	Bank of	fIndia	(RBI) in this	regard			CRS rules in India as notified by
ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं छिपाया है जिससे	यूएस रिपोर्ट	करने योग	ग्य खाते	ो / अन्य रिपोर्ट	पर खाते का मूल	यांकन/व	वर्गीकरण प्रभावित ह	हो / I certify that the information
stated in the account opening form and supporting docum that I have not withheld any material information/docu	entary evionment that	dence pr may aff	ovided fect th	d by me is to le assessmen	the best of m t/categorizati	y Know on of th	ledge and belief he account at a	f true, correct and complete and US Reportable account/Other
Reportable account or otherwise. 3. मैं समझता / समझती हूं कि मैं स्वीकार करता हूं और अधिकृत करता	हुं कि इसके	तहत बन	ाए गए	आयकर अधिनि	् यम के नियमों ः	और सरक	गर द्वारा जारी दिश	गानिर्देशों के अनुसार आवासीय स्थिति
और / या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आघार पर मेरे खाते के संब सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सीआरएस और / या इसी तरह की कोई अन	बंध में केंद्रीय	प्रत्यक्ष क	र बोर्ड ग	सीबीडीटी या अ	न्य सरकारी एजें	ंसियों को	विदेशी खाता कर	अनुपालन अधिनियम एफएटीसीए और
per the provisions of income Tax Act, Rules made thereun and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have	der and th	e guideli	ines is	sued by the C	Government/F	RBI in th	ne matter, denen	nding upon the residential status
Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply	with the ol	oligation	is as pe	er the inter- (Governmental	Agreen	nents (IGA) in re	respect of Foreign Accounts Tax
Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standar 4. में खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और मेरे द्वारा हस्ताक्षारित ज								
को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। I undertak information provided in the account opening form and sign 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्मॉल फाइनेस	te the respo ted by me a	onsibility is well as	y to de	clare, disclos documentar	se and recertif y evidence pr	y withir ovided b	n 30 days any ch by me or if any ce	ertificate becomes incorrect.
इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटल स्माल फाइने स प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी।								
application and Capital Small Finance Bank would be with	hin its righ on as may	t to put r	estrict approi	tions in the op priate if the d	perations of n	ny accou	ant or take appro ed/rectified by m	opriate action permissible under ne within the stipulated period.
the Indian regulations for the purpose or take any other acti 6. मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं जो वि है I/I agree to furnish any particulars/information that is cal								
subject matter herein.	•		•					
7. यदि मेरी ओर से गैर-प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटी जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूं भारत सरकार / R	BI आयकर ३	अधिकारिय	गें के स	ामक्ष भी कार्यवा	ही के लिए।In t	he even	t there is any tax	x demand {including interest (if
any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents that may be necessary for any proc					undertake to p	pay the o	demand forthwi	th and provide the bank with all
Income Tax Authorities.		. 501					0:	
							Signature with	out stamp

| AUTH | ORISED SIGNAT | DRY-3 | Y N | *लाभा॰ | र्री स्वा
 | मी B | enefic | ciary O | wner
 | | % | ि निय् | ुक्ति | De
 | sigr | nati | ion
 | | | | |
 | | | | अनिव
 | ार्य फीट | ਸ਼ਫ *Field | s are Man | dator
 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

ग्राहक Custo	ID omer Id		
 | | ΡI | जन्म ज
ace o |
 | th [| | | |
 | | |
 | | | | |
 | | वर्ग
gor | |
 | П | Т | П |
 |
*नाम N	Name			
 | | | |
 | Т | | | |
 | | |
 | | П | | |
 | | T | T |
 | i | | | _
 |
| *जन्म | तिथि DOB | M M | YY | YY |
 | *वैवा | हिक | स्थिति | Mar
 | rital | Stat | us | एक | ল :
 | Sing | gle | Ċ
 |] f | वा | हेत | Ma | rrie
 | d [| 3 | नन्य | Oth
 | ers | | |
 |
| *लिंग | Gender 🔲 पुरू | ष Male | ् स्व | री Fem | nale
 | ि | केन्नर | Tran | sgen
 | der | | *राष्ट्र | यता । | Nat
 | ion | alit | у
 | | भार | रती | य In | dia
 | n [| | अन्य | ı Otl
 | her | s | |
 |
| *जाती | य श्रेणी Caste ca | egory | - | सामान्य | r Gene
 | eral | | पछ | ड़ी ज
 | गाति | ОВ | С | | एस
 | सी | sc | | |
 | | एस | ਟੀ | ST |
 |] | | |
 | | | |
 |
| वोटर I
Voter | | | | | ापोर्ट
port N
 | | | | |
 | | | ै पैन
P/ | कार्ड
AN |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| ड्राइविंग | ा लाइसेंस Driving Li | cence | | |
 | | | |] A
 | | धार
HAA | R [| |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| फार्म (
Form | | | | | *
 | | णक
alifica | योग्यता
ation | |
 | | | o | रोज
ccup |
 | n | |
 | | | | |
 | | | | Pa
 | SS | ent
port | |
 |
	का नाम er's Name			
 | | | |
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | | Size
 | e F | hot | 0 |
 |
	का नाम er's Name			
 | | T | |
 | Т | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| | साथी का नाम | | | | $\overline{\Box}$
 | | Ť | | |
 | Ť | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| *स्थायी | निवास पता | | | | $\overline{\Box}$
 | | | | $\overline{\Box}$
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | 0 | ianat
 | uro | with | Stamp |
 |
| Perma | ment Address | | | | \forall
 | | | |
 | T | | | |
 | | L | А
 | Ν | D | M | Α | R
 | K | | |
 | | WILII | Stamp |
 |
| CI | ITY | | PI | N | 0
 | D E | | S | Т
 | А | ТЕ | | С | 0
 | U | Ν | Т
 | R | Υ | | |
 | M | 0 | В | L
 | Е | | N O |
 |
मेल व Mailir	न्न पता ng Address			
 | | | |
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| | | | | | \Box
 | \perp | | Щ | Ш
 | Ц | _ | \perp | |
 | | |
 | | | Ļ | |
 | | \dashv | L . | A N
 | D | M | A R | K
 |
| र मेल | ा ⊤ Y ang sil | | PI | NC |
 | D E | | S |
 | A | TE | | С | 0
 | U | N | Т
 | R | Y | ┰ | \top | Т
 | M | 0 | В | I L
 | E | Н | N O |
 |
	ਸਲੈਬ: Income Slab:		_ _ ਲ਼ਖ਼	- 1
 | <u></u> | | \vdash |
 | <u>। ।</u>
ਲੱਖ | | $\frac{1}{1}$ | <u>।</u>
ਲੱਖ |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | ш | |
 |
| *आय | के साधन 🔲 | े
वेतन
alary | _ <1L
 ूपेंश | ਜ 🗀 |
 | गरिक | ac
आर
Incom | | >2.5(
कृ
Agrica
 | षि | F | = f | > 5 La
नेवेशि | त ३
 | | |
 | | ज्याए
ental | | | अन
 | य
ners | Γ | |
 | | | |
 |
| *कुल ३ | आय | रावा y
रु. 100 ट
Upto Rs | _ Pensi
गख तक | 5 | ₹.10
 | 0 लार | ख से |
200 ला | ख तव
 | क | | | | 200
 | लार | व्र से |
 | -
0 ਜ | ख | तक | | Oti
 | 1613 | F | | ₹. 50
 | 0 ਰ | | उपर |
 |
| *Net W
*सी के | वाई सी | नया | | .ac —
गैजूदा व |
 | | | 0 Lac t | मौ
 | ोजुदा | मिप | —
ारिवर्तन | |
 | के व | ाई र | नी नं
 | | 105 | 00 | lac | _
 | _ | | _'
 - | TOGA
 | ve k | .s. 50 | 0 Lac |
 |
| *CKY | में 10% से अधिक | New
शेयर पंजी | ्या
चित्रस्थित | Existii
वाले औ | र पार्टन
 | रशिप | मिं 10 |
0% से | अधिक
 | रख | ने वा | :e char
ले सभी | शेयरध | ग्रारक
 | CKY
हों क | ने पः | हचान
 | ा
न औ | प्प
रिप | प्प
।ते व | ——
के द | — ।
स्तावे
 | —
जों व | ——
की अ | —
निवा | यं रूप
 | प्प
१ से | आवश | यकताः | —
होगी
 |
| Identi | ity & Address docu | ments of | f all sha | reholde | ers hol
 | ding | more | than 1 | .0% sł
 | hare | capit | al in th | e con | npar
 | ny ar | nd n | nore
 | e tha | an 1 | .0% | in a | part
 | ners | hip v | vill l | oe ma
 | nda | torily | requir | ed
 |
 | | | |
 | | | | |
 | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 |
| | + | भाग 🗛 | | |
 | | | हा Yes | ः न
 | T No | 2 | | |
 | | |
 | | 1 | भाग | В | PAF
 | RT B | | |
 | | | |
 |
| a. | क्या आप भारत के अलावा ि
Are you Citizen of any o | bसी अन्य देश
ountry othe | के नागरिक
r than Ind | हैं.जिसमें | ग्रीन कार्ड
 | भी शामि | ाल है? | हा Yes |
 | ∏ No | > | | वास के | लिए
 | पता / , | Addre | ess for
 | Tax | | | В |
 | | 3 | |
 | | | |
 |
| a.
b. | क्या आप भारत के अलावा ि
Are you Citizen of any c
(dual/multiple) (includin
क्या आपका जन्म दे | bसी अन्य देश
ountry othe
g Green Ca
श भारत | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव | हैं,जिसमें
ia
11 कोई | देश है?
 | • | ाल है? | |
 | | <u> </u> | कर नि
देश Co | वास के
untry |
 | | | ess for
 | Tax | | | В | शहर
 | City_ | plac | e of b | irth
 | | | 977 32 |
 |
| | क्या आप भारत के अलावा
Are you Citizen of any o
(dual/multiple) (includin
क्या आपका जन्म दे
Is your Country of b
क्या आप भारत के द | bसी अन्य देश
ountry othe
g Green Ca
श भारत
irth is any
मलावा कि | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य | हैं,जिसमें
ia
II कोई
other tha
देश के | देश है?
in India
कर निव
 | ा?
शसी हैं | | | 1
 | | > | कर नि
देश Co
जन्म व
Source | वास के
untry_
ज देश (
of Wealt | Count
 | ry of I | Birth_ | ess for
 | Tax | Reside | ence_ | | शहर
जन्म
रा
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत | | nality |
 | | | धन क | ा स्रोत
 |
| b. | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Citizen of any o
(dual/multiple) (includin
क्या आपका जन्म दे
Is your Country of b
क्या आप भारत के र
Are you Tax resident | bसी अन्य देश
ountry othe
g Green Ca
श भारत
irth is any
जलावा कि
of ANY co | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य
untry/lie | हैं,जिसमें
ia
II कोई
other tha
देश के
s other tl | देश है?
in India
कर निव
ian Indi
 |)
i?
वासी है | ? ? | | 1
 | | | कर नि
देश Co
जन्म व
Source | वास के
untry
ज देश (| Count
h
 | ry of I
गदेः | Birth_ |
 | Tax | Reside | ence_ | B
चान
ntific | _शहर
_जन्म
रा
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T | ∫ plac | nality | कर प
 | हचान
entif | ा दस्त
ication | |
 |
| b.
c. | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Clitzen of any of
(dual/multiple) (includii
क्या आपका जन्म दें
Is your Country of b
क्या आप भारत के द
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India? | bसी अन्य देश
ountry othe
g Green Ca
श भारत
irth is any
जलावा कि
of ANY co
या मैंडेट ध
a mandata | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य
untry/lie
nरक है रि
e holder | हैं,जिसमें
ia
II कोई
other tha
देश के
s other tl
जसका पत
who has | देश है?
an India
कर निव
an Indi
ा भारत व
an addr
 | i?
वासी है
ia?
से बाहर
ess | ? ? | |
 | | | कर नि
देश Co
जन्म व
Source | वास के
untry_
ज देश (
of Wealt
र निवा | Count
h
 | ry of I
गदेः | Birth_ |
 | Tax | Reside | ence_ | वान | _शहर
_जन्म
रा
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T | ∫ plac | nality | कर प
 | हचा -
entif | ा दस्त | ावेज |
 |
| b.
c.
d. | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Clitzen of any of
(dual/multiple) (includia)
क्या आपका जन्म दें
Is your Country of b
क्या आप भारत के दे
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India?
क्या आपका भारत व
Is Your address or t
UG उपरोक्त किसी | ountry othe
g Green Ca
श भारत :
irth is any
मलावा कि
of ANY co
या मैंडेट ह
a mandate
है बाहर के
lephone n | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य
untry/lie
iivक है दि
e holder
or पता र
umber or
का उत्तर | हैं , जिसमें
ia
II कोई
other tha
देश के
s other th
swho has
II टेलीप
utside In
हाँ है है | देश है?
an India
कर निव
an Indi
I भारत प्र
an addr
bोन नंब
dia
 | े
1?
गासी है
18?
से बाहर
र है।
गर है। | ;
;?
; है? | |
 | | | कर नि
देश Co
जन्म व
Source | वास के
untry_
ज देश (
of Wealt
र निवा | Count
h
 | ry of I
गदेः | Birth_ |
 | Tax | Reside | ence_ | वान | _शहर
_जन्म
रा
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T | ∫ plac | nality | कर प
 | हचान
entif | ा दस्त
ication | ावेज |
 |
| b.
c.
d. | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Clitzen of any of
(dual/multiple) (includial
क्या आपका जन्म दे
Is your Country of b
क्या आप भारत के :
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India?
क्या आपका भारत व
Is Your address or to
यदि उपरोक्त किसी
If your answer to an
Undertaking: | ज्या वेश
ountry othe
g Green Ca
श भारत :
irth is any
अलावा कि
of ANY co
या मैंडेट ध
a mandate
के बाहर क
lephone n | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य
untry/lie
iiv क है ि
e holder
or पता र
umber or
का उत्तर
ove quest | ह हैं,जिसमें ia II कोई other tha देश के s other tl जसका पत who has II टेलीप utside In हाँ है र | देश हैं?
an India
कर निव
an Indi
i भारत
an addr
on नंब
dia
ii कृपय
"YES'
 | 1?
श्रासी है
श्रासी बहर
से बाहर
एट हैं।
एट हैं।
प्रभाग
please | ैं?
र है?
ा ख भ
fill Pa | ा
ा
ा
नरें।
art B |
 | | | कर नि
देश Co
जन्म व
Source
क | वास के
untry
ज देश (
of Wealt
र निवा
untry (| Countr
h
स क
of Ta
 | ry of I
ज देश
ix res | Birth_
ST
Siden | icy
 | | Reside
कर
Tax | us
us
ider | चान
ntific: | _शहर
_जन्म
रा
सरंख्य
ation
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T
num | plac
II Natio | nality | कर पा
Tax id
 | entif | ication | विज
Docum | ent
 |
| b.
c.
d.
e. | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Clitzen of any of
(dual/multiple) (includial
क्या आपका जन्म दें
Is your Country of b
क्या आप भारत के द
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India?
क्या आपका भारत व
Is Your address or to
यदि उपरोक्त किसी
If your answer to an | ptil अन्य देश
ountry othe
g Green Ca
श भारत :
irth is any
अलावा कि
of ANY co
या मैंडेट ह
a mandato
के बाहर क
lephone n
भी प्रश्न क
of the ab | के नागरिक
r than Ind
rd)?
के अलाव
country
सी अन्य
untry/lie
live है दि
e holder of
our पता र
umber of
to उत्तर
ove quest | ह हैं,जिसमें
ia
II कोई
other the
देश के
s other th
जसका पत
who has
II टेलीप
utside In
हाँ है त | देश है?
an India
कर निव
an Indi
I भारत प्र
an addr
जोन नंब
dia
i) कृपय
"YES'
 | ar
arसी है
ia?
से बाहर
ress
rर है।
II भाग
please | ैं?
र है?
ा ख भ
fill Pa | ा
नरें।
art B | ।
।
।
प्रत्यक्ष
 | ————————————————————————————————————— | बोर्ड स | कर नि
देश Co
जन्म व
Source
क
Co | ant के untry or देश (of Wealt t निवा untry (| Count
h
स क
of Ta
 | ry of I
न देश
ax res | Birth_ | ь эп
 | ्र
गरबीः | कर
Tax | uहः
ider | चान
ntific: | _शहर
जन्म
रा
संख्य
ation
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T
numl | plac
II Natio
ber* | nality | कर पा
Tax id
 | entif | ication | ावेज
Docum | ent
 |
| b. c. d. e. 1. \mathring{H} : | क्या आप भारत के अलावा f
Are you Clitzen of any c
(dual/multiple) (includia
क्या आपका जन्म दे
Is your Country of b
क्या आप भारत के:
Are you Tax resident
क्या आपके पास पीओए
Do you have POA or
outside India?
क्या आपका भारत व
Is Your address or t
यदि उपरोक्त किसी
If your answer to an
Undertaking: | क्ती अन्य देश
ountry othe
go Green Ca
श भारत:
irth is any
wenter कि of ANY co
या मैंडेट ह
a mandato
के बाहस क
lephone n
भी प्रश्न द | के नागरिक r than Ind r than Ind rd)? के अलाव country सी अन्य untry/lie II एक है दि e holder or unber or उत्तर ove quest II करती सिथाति | ह हैं,जिसमें ia II कोई other that देश के s other than that that the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of | देश है?
an India
कर निव
an Indi
I भारत क
an addr
जोन नंब
dia
"YES'
मैंने भा
की है
 | a?
al है
से बाहर
ए हैं
II भाग
please | हैं?
र हैं?
I ख भ
fill Pa | ारें।
तरें।
क्रेंद्रीय | प्रत्यक्ष
certif
 | किर व | बोर्ड स | कर नि देश Co जन्म व Source क Co | ant के untry | Counti
h
स क
of Ta
 | रिजवं | Birth_
श
siden | necy
क आ
 | ारबीः | कर
Tax | पहः
ider | चान
ntifica | _शहर
_जन्म
रा
संख्य
ation
 | City_
स्थान
च्ट्रीयत
T
numl | plac
II Natio
ber* | nality
सूचि | कर पर
Tax id
 | entif
त में
ndia | ication
लागू
a as n | ावेज
Docum
एफएटी
otified | ent
ent
by
 |
| b. c. d. e. 1. | क्या आप भारत के अलावा fare you Clitzen of any of (dual/multiple) (includial art of the property of be art of the property of be art of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the pr | eth अन्य देश ountry othe g Green Ca हा भारत irth is any waren of ANY co या मैंडेट ह a mandato b बाहर क leephone m भी प्रश्न द v of the abo प्रमाणि प्रसार अपन (Central खाता खोत | कं नागरिक
r than Ind
r than Ind
rd)?
के अलाव
country/lie
light कर्म
ountry/lie
light कर्म
हो पता उ
umber or
bumber or
ove quest
in करत
हो स्थिति
क्रियां क्रियां
अने के फ्रं | हैं, जिसमें ia II कोई other tha देश के s other th in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | देश है?
an India
कर निव
an Indi
I भारत र
an addr
गेन नंब
dia
गे कृपय
मैंने भा
की है .
ct Taxe
गई ज
 | े ?
शसी हैं
a?
प है।
प हो।
माग
please
पत सा
/ I
es (CE
।
।
।
। | ें?
र है?
ा ख म
fill Pa
रकार
अDT)
री और
ससे यू | ार्ग । art B केंद्रीय : | प्रत्यक्ष
certif
eve Ba
रा प्रदान
 | कर र
fy the | बोर्ड स
at I h
f Indi
ए गए | कर नि
देश Co
जन्म व
Source
के
Co | untry | Count
h
स क
of Ta
l my
is re
i ज स्
 | रिजर्व
/ sta
egar
र खा | Birth_
हा
siden
tus
d.
मेरे | as p
सर्वो
 | गरबीः
per क्ष | কং Tax आई appl | प्रहः
ider
ical
और | चान
ntific:
ole F
र विश् | _शहर
_जन्म
_रा
_रा
ससंख्य
tation
 | City_
स्थान
प्टूरीयता
T numl
E में
CA/(
के अ | place II Natio ber* अधि- | nality
सूचिव
rule | कर पर
Tax id
s in I
es in I
 | त में
ndia
hat t | लागू
a as n
र पूर्ण
he int | एफएटी
otified
है और
format | ent
by
मैंने
 |
| b. c. d. e. 1. 第 - ਚੀ: Go 2. 第 5 ऐसं | क्या आप भारत के अलावा fare you Clitzen of any of (dual/multiple) (includial are are are are are are are are are are | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca हा भारत irth is any we and an far of ANY co an मैंडेट ह a mandate b बाहर क lephone n भी प्रश्त ह — प्रमाणि स्तार अप- /Central खाता खोत opening | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | हैं, जिसमें ia II कोई other that can be so ther that so ther that who has II टेलीप utside In हैं है त tions is a II हू कि II हि कि II हो जिल्ला में से दी ज नहीं हैं ind sup | देश है? an India कर निव an Indi i मारत ज्ञित addr on addr "YES" मैंने भा की है t Taxe yuru है yortin
 | े.? शासी है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है शास है | ें?
र है?
ा ख भ
fill Pa
रकार
3DT)
री और
ससे यू | ारं। ारा B केंद्रीय: /Reserr मेरे द्वार | प्रत्यक्ष
certif
ve Ba
रा प्रदाः
टि कर
viden
 | कर द
fy thank of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a range of a ra | बोर्ड स्
at I h
f Indi
ए गए
ग्य ख
rovid | कर नि
वेश Co
जन्म व
Source
क
Co
Dialesta
ave de
ia (RB
समर्थन
समर्थन
वाते / अन् | uuntry | Countrible स क
of Ta
 | रिजर्व
१ sta
१ sta
१ sta
१ sta
१ sta
१ चाहि | ि बैंद
est of a | क आ
as p
सर्वो
ग मूर् | तरबीः
per क्ष
त्तम
ल्यांक
 | कर
Tax
आई
appl
ज्ञान | प्रहर
ider
ical
और | चान
ntific:
T इस
ble F
र विश्
dge : | ्शहर
_जन्म
_रा
ससंख्य
htion
ATC
वास
। प्रभ | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T numl
E में
CA/(
के अ
 | plac II Natio अधि CRS नुसार हो / | nality
मूचिक
rule | कर पार
Tax id
es in I
य, सर्ह
tify th | त में
ndia
ती औ
hat t
 | लागू
a as n
र पूर्ण
he int | एफएटी
otified
है और
format | ent
by
मैंने
ion |
| b. c. d. e. 1. 并 | क्या आप भारत के अलावा fare you Clitzen of any of (dual/multiple) (includial art of the property of be art of the property of be art of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the pr | हमी अन्य देश ountry othe g Green Ca हा भारत irth is any world ANY co या मैंडेट ह a mandato b बाहर क leephone m भी प्रश्न द v of the ab g सार्व अप- (Central Guint खोर all opening held any ro therw b मैं स्वी | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह हैं, जिसमें ia II कोई other tha देश के s other th उसका पत who has II हूं कि II हूं कि II हूं कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां कि II हां की II हां की II हां औ | देश है? an India कर निव nan India I भारत है an addr or नंब dia II कृपय मैंने भा की है tTaxe जिल्लामा है orting
 | तारी हैं
बादी हैं
से बाहर
ए हैं।
II भाग
please
va स
/ I_
es (CE
inapt(
Goon/do | ा ख भ भ रकार
तिशा Pa
रकार
अDT)
श और
ससे यू | | प्रत्यक्ष
certif
रा प्रदाः
गेर्ट कर
viden
at ma
 | कर र | बोर्ड स्
at I h
f Indi
ए गए
गय ख
rovid | कर नि देश Co जन्म व Source कर् Cc विकास | untry | Countrible H क of Ta I my is re is to the
 | रिजव
हर x res
/ sta
egar
सहय
र खा
ne b
cate | Birth_
श
siden
ttus
d.
मेरे
श्वित क | क आ
as p
सर्वो
राज्य
चंद्रिय
स्था
 | ारबीः
per र
त्तम
ल्यांव
ion | कर
Tax
अग्नाई
appl
ज्ञान
कन/
Knov | पह
द्वार
ical
'वर्ग
wleo
the | चान
ntifice
state
ble F
v विश्
dge acco | _शहर
_ जन्म
_ रा
सांख्य
ation
GATC
and l
r प्रम
and l
ount
 | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T
numl
के अ
वित
belic
at a | plac II Natio ber* अधिः CRS नुसार हो /- | mality
rule
rule
I cer
e, ce
Re | कर पार
Tax id
त भारत
s in I
य, सर्ह
titify tl
Direct
porta
के अनु
 | त में
ndia
hat t
t and
ble | लागू
a as n
v पूर्ण
he int
d com
acco | एफएटी
otified
है और
formati
plete a
unt/Oti | ent
sflए
by
मैंने
ion
ind
ner
 |
| b. c. d. e. 1. 第 - 专fit Go 2. 第 5 转ta tha Re 3. 第 3 | क्या आप भारत के अलावा fare you Chitzen of any of (dual/multiple) (includia dual multiple) (incl | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श भारत : rth is any annal fab of ANY co या मैंडेट ह a mandato b बाहर व lephone n भी प्रश्न द of the ab y माणि (Central gाता खोट nानकारी/ opening held any or otherw of मैं स्वी अन्य मान | के नागरिक r than Ind rr than Ind rr than Ind rr (10)? के अलाव country की अलाव है कि का पता र umber of the Ind Re (10) कि करत के फिर है कि कार करत कार कर दंडों के उ | , हैं, जिसमें ia II कोई other that depth of the content that depth is so other that is so other that is so other that is so other that is so other that is so other that is so of Directiff में दी of Directiff ind supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial infant supprial | देश है? an India कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर निव कर | ार्था है ।
श्री मासी है श्री बाहर
परे हैं । । । भाग please
परं सं । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
 | िख १
ती। Pa
रकार
3DT)
री और
ससे यू
umer
ocum | ा
पित्रां ।
श्रीयार्ष B
केंद्रीयार्शित्रहरूदा
भेरे द्वार
एस रिप्
सामार्थित प्रस्ति प्रस्ति ।
सामार्थित प्रस्ति । | प्रत्यक्ष certifi
प्रत्यक्ष certifi
रा प्रदार
रोर्ट कर्ष्या | कर व
fy that one of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the
original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original of the original original original original original original original original original orig | बोर्ड स्
at I h
f Indi
ए गए
गय ख
rovid
fect | कर नि देश Co जन्म व Source क Co ति वी वी वी वी वी वी वी वी वी वी वी वी वी | untry | Countrible The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
रिजर्व
रिजर्व
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक्ट
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्रिक
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श् | Birth_
श
श
siden
ttus
d.
मेरे
वि क
est (
egor | क आ
as p
सर्वो
ग मूर
of m
izat
यमों | त्रकीः
त्तम
ल्यांक
ion
और
 | कर
Tax
आई
appl
ज्ञान
of | प्रहः
ider
अौर
वर्गी
wlea
the | चान
ntifice
toble F
dge according according according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according to the second according | _शहर
_ जन्म
_ रा
सांख्य
attion
- संबं
ATC
and l
r प्रभ
and l
count
जार्र
खार | City_
स्थान
ष्ट्रीयत
T numl
के अ
वित
के elic
at a
 | ा Natio Il Natio ber* अधिः | mality
मूचिव
rule
I cer
e, ce
Re | कर पा
कर पा
त भारत
s in I
v, सर्ह
borrect
के अन् | entif
त में
ndia
hat t
t and
ble
नियम
 | लागू
a as n
t पूर्ण
he int
d com
acco | एफएटीर
otified
है और
format
iplete a
unt/Oti | ent
by
मैंने
ion
ind
her
प्रति |
| b. c. d. e. 1. 前。 GG 2. 前3 ऐ转 sta tha Re 3. 前。 | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial city and in a series of the properties of th | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श मारत : rth is any arental कि of ANY co या मैंडेट ह a mandato ह | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह हैं, जिसमें ia II कोई other that depth of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the c | देश है?
an India
कर निवं
ता India
। पारत प
वा an addri
। कृपय
मैं ने भा
के प्रेपाया हैं
एक प्राप्त प
एक प्रमेर
ए मेरे ए
हर हर कि प्रमुख्य | े .???
 | ा ख भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। एक भ हो। ए | ारें। rrt B केंद्रीय '/Reser मेरे हार एस रिप (प्त रिप (प्त रिप (प्त रिप (प्त रिप (प्त रिप त्र में केंद्र | प्रत्यक्ष
certif
रा प्रदान
नेर्ट कर
vid en
क्रिकेट
ने क्रिकेट
ने ्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्रिकेट
न क्
न क्
न क्
न क्
न क्
न क्
न क्
न क् | कर र विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व कर विश्व
 | बोर्ड स्
nat I Indi
ए गए
प्य ख
rovid
विंक क
बोंक क
lines | कर नि देश Co जन्म व Source कर Co विकास के समर्थन ते / अः ed by the ass ए आवार है नी बीस् | untry | Counting to the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuation of the continuat | रिजर्व
रिजर्व
/ sta
egar
næय
र खा
ग के
प्रसर्व
हिंद्य
 | Birth_
शा
iden
मेरे
गेरे
ह्युor
श्कार्र | क आ
as p
सर्वो
ग मूर
of m
izat
यमों
श एर्ज्
पड़ र | त्रकीः
त्तम
ल्यांव
शोर
शेंसिः
सकर्त | कर
Tax
आई
appl
इान
/Knov
of :
सरव्यों क
 | सहर
ical
'वर्ग
wleo
the
on t | चान
ntific:
T इस
ble F
किरण
dge :
acco
द्वारा
iदेशी
nder
matt | ्शहर
_जन्म
_ रा
रा
संख्य
ation
संब
(ATC)
वास
जार्र
जार्र
खात्
खात्र | City_ स्थान स्थान प्रियात त प्रामा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान | ा Natio ber* अधिः CRS नुसार हो / L
 | मूचिव
rule
!, सर
I cer
e, ce
e, ce
ह सिं | कर पा
कर पा
त भारत
s in I
a
v
सर्ह
पा
पा
पा
सर्ह
के अन्
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
।
। | त में
ndia
hatt
tand
ble
न्यम्
nda
e re
 | लागू
a as n
v पूर्ण
he int
d com
acco
s आवा
i एफए
uthor
siden | एफएटी
एफएटी
otified
है और
format:
pplete a
unt/Oti
सीय स्थि | मीए
by
मैंने
ion
her
प्रति
और |
| b. c. d. e. 1. 首 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा fare you Chitzen of any of (dual/multiple) (includia dual multiple) (includia and includia multiple) (includia and includia multiple) (includia and includia multiple) (includia and includia multiple) (includia and includia and includia and includia multiple) (includia and includia | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श भारत : irth is any ample of ANY co या मैंडेट ह a mandato b बाहर व lephone in भी प्रश्न द of the ab y माणि (Central खाता खोर मानकारी / opening held am yr otherw के भैं स्वी अन्य मान सीआरएर income stipulate ler Gove er Gove | के नागरिक r than Ind rr than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह हैं, जिसमें ia II कोई other that dependent that dependent that dependent is a souther that dependent in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | देश है? an India कर निव कर निव ता ana India ता मारत व ता मारत व ता मारत व ता कि कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता कि ते मारत व ता क ता क ता क ता क ता क ता क ता क ता क | ा?
श्री मासी है
श्री मासी है
श्री मासी मासी मासी मासी मासी मासी मासी मास
 | ा ख १ है? ा ख १ है? ा ख १ है? ा ख १ है? ा ख १ है? तिशा Pa रकार 3DT) शी और ससे यू स्थार्थ उ संबंध उ संबंध उ स्थार्थ d ave to bly w | ि
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं
ं | प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष
र प्रदार
गेर्ट कर
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
प्राप्ति
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क् | कर दें
fy the
fy the
read pay af
eace pay af
eace are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read
are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
read are
an are
ad a are
an are
ad a are
ad a are
ad a are
ad a are
ad a are
ad a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a are
ad a a a are
ad a a are
ad a a a are
ad a ar | बोर्ड स्
at I h
ए गए
ए गए
चार्च खोर्ड
बैंक व
lines
lines
n I | कर नि
देश Co
जन्म व
Source
के Co
के के Co
के के Co
के के Co
के के Co
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क | untry | flu f
flu f
flu f
flu f
flu f
function र
function र
function र
function र
function र
function function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu function
flu f | रिजव
रिजव
/ sta
egar
साह्य
र खा
मि
के
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हि
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हिंदा
हि
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह
ह | हा केंद्र
हाते केंद्र
होते केंद्
होते केंद्र
होते कें | क आ
as p
सर्वो
जिल्लामूर्
श्रिकामूर्
पड़ स्
ent/
s) as | तरबीः
oer ह
त्तम
ल्यांव
ion
और
संकर्त
RB
per | कर Tax आई appl ज्ञान कन/ Cnov of : सरव | greater ical ical ical ical ical ical ical ical
 | चान
ntifice
इस
ble F
करण
acco
द्वारा
विश्वी
mder
secril | ्शहर
_जन्म
_रा
संख्य
attion
जार्र
खार
खार
खार
खार
खार
(GA | City_ स्थान प्रशास प्रामा Earli GA/(के अ वित belie at a d, aa depee form) in | श्रीक
अधिक
CRS
नुसार
हो / L
ध US
eknon
nat to
 | म्यूचिव
rule
rule
., सत्
शिं
मालन्
wlea
g up | कर पा
Tax id
त भार
इ in I
य, सर्ह
tiffy tl
porta
के अन्
ा अधि
dge an
on th | त में
ndia
fl औ
hat t
t and
ble
नियम
ad a
e re
ral I | लागू
a as n
v पूर्ण
he in
d com
acco
आवा
i एफए
uthor
siden
aSoard
 | एफएटीर
otified
है और
format:
plete a
unt/Oti
सीय रिक्ष
टीसीए :
ize that
tial sta
of Dir
ounts T | सीए
by
मैंने
ion
ther
van
tas
tus
ect |
| b. c. d. e. 1. # - fl. GG 2. # 3 vec sta tha Re 3. # fl. HIP pe an Ta Cc 4. # fl. | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial dual multiple) (includial multiple | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श भारत irth is any aman aman aman of ANY co या मैंडेट ह a mandate है बाहर क lephone n भी प्रश्न र of the ab — प्रमाणि [सार अप- /Central खाता खोर तानकारी / opening held any or otherw के मैं स्वी अन्य मान स्त्रीआरएस tincome stipulate er Gove [CA) an में प्रदान र | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह हैं, जिसमें ia II कोई other that depth as a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother that a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother than a sother tha | देश है?
an India
कर निव
an Indi
ा भारत प
मारत प
में ने भा
मैं ने भा
में ने भा
एक प्राया है
प्राया है
इस प्रमेर के
s made
s s made
s s made
s s made
s s made
स्वार्ध प्रमार
स्वार्ध प्रमार्थ स्वार्ध प्रमार
स्वार्ध वार
स्वार स्वार | ा?
।?
।।?
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। | र है? ा ख क कि निर्माण कि कि निर्माण कि सम्बंध कि कि निर्माण कि कि निर्माण कि कि निर्माण कि कि निर्माण कि सम्बंध कि कि निर्माण कि सम्बंध कि निर्माण कि सम्बंध कि निर्माण कि सम्बंध कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि
निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर्माण कि निर | ारें। rrt B कें द्रीय परिप्रसिद्धार कि स्वित्स कि स्वाप्त कि प्रसिद्धार कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स | प्रत्यक्ष certification of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont | कर र कि प्राप्त कर कि प्राप्त कर कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त | बोर्ड स्
at I h.
f Indi
ए गए
गय ख
ताए ग
बेर्क क
बेर्क क
lines
ls in 1
nany o
 | कर नि देश Co जन्म व Source कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि CC कि | untry | Countrible शिक्ष के कि प्रमानिक स्थानिक स्था | रिजर्व
१ sta
१ sta
१ sta
१ sta
१ खा
१ खा
१ का
१ का
१ वर्ष
१ का
१ वर्ष
१ वर
१ वर्ष
१ वर
१ | हा हो हो है है दें दें दें दें दें दें दें दें दें दें | क आ as p
सर्वो के मूर्
जिस्को पुरु
पि एउं
पड़ र
ent/s
ent/s
enta
 | ारबीः
लिम
ल्यांक
शोर
शोर
सिक्त
हिम्स
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर
शोर | कर
Tax
आई
आई
शान
निर्मा
शान
सरव्यों के
I in the
gree | हार
iden
अौर
वर्गी
wlea
the
कार
pre
men | चान
I इस
ble F
किरण
किरण
किरण
acco
द्वारा
i देशी
nder
mattescrii
nts () | ्शहर
जन्म
संख्या
ATC
वास
। प्रभ
जार्र
खाद
stan
er, c
 | City_ स्थान प्रशासम्बद्धाः में EA/(के अ वित के elic at a d, ac depe | place place अधिक दश्या हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / हो / | म्यूचिव
rule
I cer
e, co
ह Re
श्री
श्री
where | कर पा
कर पा
त भारत
के आन्
त अधि
dge an
oon th
Cent
f For
 | त में
ndia
hat t
t and
ible
पुसार
नियम
ad a
e re
ral I
e igr | लागू
a as n
v पूर्ण
he in:
l com
acco
आवा
i एफए
utidor
nsdoard
n Acc | एफएटीः
otified
है और
Format
unt/Oti
dathy दिख्
टीसीए
ize tha:
of Diri
tial sta
of Diri
 | मीए
by
मैंने
ion
and
her
पति
और
tas
tus
ect
ax |
| b. c. d. e. 1. मैं - सीः GG 2. मैं ऽ ऐसं sta tha Re 3. मैं ; सा pe an Ta Cc 4. मैं ऽ को | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial dual multiple) (includial multiple | ह्मी अन्य देश ountry othe g Green Ca श मारत irth is any अलावा कि of ANY co या मैंडेट ह a mandato ह ि हो हि ह या मेंडेट ह व mandato ह ि हो हि ह या मेंडेट ह व mandato ह ि हो ह व mandato ह ि हो ह व mandato ह व क्षा मारि ह व mandato ह ि हो ह व mandato ह व क्षा मारि ह व क्षा मारि ह व क्षा स्टि ह व क्षा स्टि ह व क्षा स्ट ह व क्षा स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह व क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह क्ष स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह स्ट ह | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह हैं, जिसमें ia In कोई other that deep content of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s | देश है? an India कर निव कर निव ाता India ा भारत दे ा भारत दे के निव के भारत के के भारत के के भारत के के भारत के के भारत के के भारत के के के भारत के के के के के के के के के के के के के क | ाशी हैं बहु
केशे बहुद
से बहुद
र हैं।
ा भाग
please
रत स
रत स
हैं जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
है जि
हो जि
है जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो
जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो जि
हो हो हो
हो हो हो
हो हो
हो हो
हो हो
हो हो
हो हो
हो | र है? र है? र है? र है? र है? र कार Pa रकार Pa रकार संबंध है सबंध है सबंध है सबंध है सबंध ply wadard ave to dard are trake | ारें। rt B कें द्रीय 'Resere मेरे द्वार एस रिप पाताप e eent th िक इस् व्यवस्था | प्रत्यक्ष
certifi
रिक्ष
रा प्रदान
निर्दे कर
प्रांतिक
तक तह
तक तह
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक
तक | कर र
 | बोर्ड स्
at I h
of Indi
ए गए
ए गए
प्रच्य ख
ताए ग
नाए ग
वैंकिक
बैंकिक
sanyo
थ मेरे | कर नि देश Co जन्म व Source कर टि क्रिक्ट | untry | िounth
H क क
of Ta
शि का
शि कि
शि br>शि
शि कि
शि कि
शि कि
शि
शि
शि
शि
श
शि
श | रिजर्व
रिजर्व
/ sta
e gar
साह्य
र खा
e b
cate
म के
र
र
र
र
जिल्
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्
हिंद्र
हिंद्र
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद्
हिंद
हिंद
हिंद्
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद
हिंद | हा
siden
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
शिव
 | कड़ प्राची
कड़ प्रमची
हो एउं
पड़ र
eent/
ज स
eerti | ारबीः
लिम
ल्यां वे
ion
और
मिस्ति
हिम्
ilAg | कर
Tax
आई
आई
appl
ज्ञान
of :
the
ithe | हार
चंदि
चंदि
अौर
वर्ग
wlec
the
in of
 | चान
ntifica
i इस
ble F
forwadge a
according
i देशी
nder
matt
scrii
nts () | ्णहर
जन्म
स्रां ख्या
स्रां ख्या
ATC
वास
I प्रभ
जार्र
खात
stan
er, c | City_ स्थान स्थान ह्य में CA/(के अ विव के lepe d, ac d, epe form un y y y y | place II Nation ber* अधिक CRS नुसार हो / अनुसार हो हो लात
 | म्यूचिव
rule
l Cen
e, co
l Re
श्री
mere
g up
the
ect o | कर प्रा
त भारत
s in I
य, सर्ह
porta
के अनु
Cent
on th
Cent
of For
vv 30 | त में
India
India
It and
It a | लागू । as n
v पूर्ण
he in:
l com
acco
: आवा
i एफए
uthor
siden
doard
i Acc | प्रक्रिप्त Docum Vywych है और Format pplete a unt/Ot दीसीए दि दीसीए जिल्ला
 | सीए
by
मैंने
ion
ind
her
vias
tus
ect
cax |
| b. c. d. e. 1. 第 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा fare you Clitizen of any of (dual/multiple) (includial cludial properties) of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श भारत ाrth is any ample of ANY co या मैं डेट ह a mandato b बाहर व lephone in भी प्रश्न ह of the ab — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अपन — प्रमाणि सार अप | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other the depth of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the | देश है?
ति an India
कर निव
कर निव
का India
an India
। भारत व
निव
ने निव
से कि
कि
कि
कि
कि
कि
कि
कि
कि
कि
 | ा भागी है बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाह कर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के ब | र है? र है? र है? र है? र है? र है? र है। र कार र कार उ संबंध अन्य eund ave truck by training and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | िप्ता के के दीय 'Reserring that the rese of the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reserving a first that the reservin | प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत् | कर व
fynk:
or for for
read at a read at a
read at a read at a read at a
read at a read at a
read at a read | बोर्ड स्
at I h
of Indi
ए गए
ए गए
ए गए
ए गए
वार
वार
बेंक क
lisnes
Is na
sany o
v
मरे
(
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप्ट
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्र
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्र
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प्राप
प
प्राप
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प
प | कर नि
देश Co
जन्म व
Source
के Cc
के के Cc
के r>क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क | untry | Country h स क of Ta शिया शिया शिया शिया शिया शिया शिया शिय | रिजर्व
१ राव
१ राव
१ श्वा
१ राव
१ रे
१ रे
१ रे
१ रे
१ रे
१ रे
१ रे
१ रे | Birth_
हा
siden
tus
d.
मेरे
ति क
est (
egor
rnm
tr (
s
rnm
fr a
l rec
dence
to the
contraction
to the contraction
to the contr | क आ as p
सर्वो कि मूर्
का मूर्य
प्रमा हैं।
अहम कि स्व
क्लार्य
का स
 | ारबीः
त्तम
ल्यांव
शोर
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शोरि
हिस्स्
शेरि
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स्
हिस्स् | कर Tax अगई आई शान कन/ Knov of the the | हार
iden
हार
ical
wleo
the
on the
pre
in 3
by | ा इस
ble F
किरण
किरण
बारा
विदेशी
nder
matisscrii
nts ()
का र
का र | ्शहर
्जन्म
स्वार
ATC
वास
प्रम्
and l
ount
stan
cer, coed
food
 | City_ स्थान प्रशास के अ iवित belie at a idepe form j in j un y q g u y g u y g u g u y g u g u g u g u g | place II Natio ber* अधिः CRS नुसार हो / धिरानिवं र अनुग्धिः kno ndin aut to respe | mality
सूचित
rule
rule
e, cre
e, cre
e, cre
e the
eet cre
होने
es th
icate | कर पार
त भारत
s in I
य, सर्ह
tify th
porta
के अन्
I अधि
dge an
on th
f For
vv 30
at ma
e becc
लता में
 | त में ndia that the tand that the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand the tand | लागू
a as n
v पूर्ण
he inn
d corr
acco
siden
doard
i Acc
i के क
ke pl
s incc | प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रका | सीए by
मैंने
ion
ther
प्रति
अगैर
ect
ax
इल
the
 |
| b. c. d. e. 1. 前 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial city and in a series of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श मारत irth is any अलावा कि of ANY co या मैंडेट ह a mandato है बाहर क e lephone n भी प्रश्न द of the ab — प्रमाणि पुसार अप- /Central खाता खोत जानकारी / opening held any r otherw के मैं स्वी अन्य मान स्त्रीआरएर income stipulate eer Gove FCA) an में प्रदान द ठ करने व हे i in the a कि मेरे आ कार्रवाई tal Smal | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other that depth at a large of the transite In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Telephone In Tel | देश है? an India कर निव कर निव ा मारत प्रकार का तिव ा मारत प्रकार के कि के मा के क्या के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के
कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के | ासी है बहुत के बहुत के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | र है? र है? र है? र कार SDT) र ससे यू रकार रता हू अध्यातिक अध्यातिक सम्मानिक | ारें। rrt B कें द्रीय '/Reser मेरे हार एस रिप (के इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में केंद्रीय '/ति इस् हा में में में में में में में में में में | प्रत्यक्ष certifi at a certifi कर कर कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि तह कि त | कर र कि think to a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a
transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a transfer a tr | बोर्ड स्
at I ha
ff Indi
ए गए
ए गय ख
प्राप्य ख
विकास
हों
कि की
हों
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो | कर नि देश Co जन्म व Source कर टि क् विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास की नि विकास | untry | Country h The set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of | रिजर्व
त देश्व
ए sta
egar
म के
ever
cate
evic
and
evic
anny
erati
 | हा siden
हा siden
हा के कि
तो के कि
तो के कि
तो के कि
तो के कि
तो के कि
ता के कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
ता कि
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त
त | क आ as r
सर्वो प्रज
of m
izat
यमो एज
पड़ र
entra
or स
ce pri
t भी
t भी
t भी
t भी
t भी
t भी
t भी
t भी | ारबीः
ber द नम
ल्यांक
y k
ion
और
सिक्त
RB
per
ilAg
मोदि
भौदि
भौदि | कर Tax आई आई appl जान कन/ chov of the the the ded ded ded cet ka
 | हार
iden
हार
ical
और
वर्गी
wlece
the
in 3
by:
in 3
by:
nov | चान
I इस
ble F
र विश्
acco
according
it शी
nder
matt
sscrii
nts ()
to da
me c
का र | ्रशहर
_जन्म
_रा
रा संख्या
सर्वाद्ध
ATC
वास
जार्र वास
जार्र
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात | City_ स्थान प्रशास के अ GA/(के अ flवित belice at a d, ac lepee form ya v el inny con now appr
 | ज्ञाधिक
अधिक
CRS
नुसार
हो / v
ef tru
a US
to angular
hang
certification | मूचिव
rule
i., सर
I cer
e, ce
हे शों
Hier-
wlee
g up
the
est th
cat
विफ
n fu | कर पार
त भारत
s in I
य, सर्ह
tify th
portect
porta
के अन्
ा अधि
dge an
on th
Cent
f For
vv 30
at ma
e becc
लता ? | त में ndia that it t and all e re ral I e e igr दिन aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay
ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay ta aay aay | लागू
a as n
v पूर्ण
he ini
d com
acco
siden
doard
a Acc
i के क
ke pl
s inc
o
in o
o
in r>o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o | प्रेज Docum Procum Very Clarified है और From the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the lig | सीए
by
मैंने
ion
ind
her
प्रति
दे as
ect
cax
इल
the
my
der |
| b. c. d. e. 1. 第 · vhr Go 2. 第 · vhr sta Re 3. 第 · vhr pe an Ta Cc 4. 第 · sh ap the 6. 第 f | क्या आप भारत के अलावा fare you Clitizen of any of (dual/multiple) (includial cludial properties) of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro | स्त्री अन्य देश ountry othe g g Green Ca a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a ret had a re | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other the depth of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the | देश है?
ति श्री शिक्ष
कर निव
कर निव
का India
का India
निव
वो के वि
के प्राप्त ।
मैं ने भा
की है
रा Taxe
क्ष्माया है
क्षमाया है
हिंदी स्थित
हिंदी स्थाप
हिंदी | ा भागी है बहुत के बहुत के बहुत के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कहा के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
 | र है?
र है?
र कार
र कार
र कार
र समे यू
एकार
र संबंध
स्थाप
अन्य
स्थाप
में संबंध
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्थाप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्याप
स्
स
स
स्याप
स्
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | ि प्राप्त के के प्राप्त के कि प्राप्त के की म | प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष
र प्रदार
र प्रदार
र के आ
the gu
t oblig
sponssi
ponssi
ree th
ght to
e as w | कर र दिए th: and the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put
before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the put before the | बोर्ड स् at I h
f Indi
ए गए
ए गए
ए गए
ए गए
ए गए
वार
जिल्हा
बैंक क
lines
I lines
I lines
any o
थ मेरे
अ
थ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्थ
अ
भ प्रार्य
अ
भ br>भ प्रार्य
अ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ
भ | कर नि
देश Co
जन्म व
जिल्ला के Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि Co
कि कि Co
कि Co
कि Co
कि कि कि कि Co
कि कि कि Co
कि कि कि कि कि Co
कि कि | untry | Countrible h flय f flu f flu f flu f flu my mis re for ta flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu f flu | रिजर्व
त देश
/ sta
egar
Heave
becate
In के
Foreign of
any
any
any
any
any
in any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
 | हाराक_
हारांचिक
प्रेंदित के क्रिक्ट
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांचिक
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
हारांच
ह | क आ
as p
सर्वो
ग पूर्व
of m
izat
यमों
ग एउं
vent/
ce pin
i भी
teria
of i
is n
of i | ारबीः
तम
ल्याव
अौर
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक्त
शिक
शिक्त
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक | कर Tax आई appl ज्ञान कन / Cnov of the three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three
three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three three thr | हार
idea
हार
वर्ग
where
the
one
in 3
by
तथ्य
nov
ted
the | चान
ntifice
in set
ble F
volument
escri-
ints ()
liई फ्र
O da
or t
or t
c or t
c or t
e c or t | ्शहर
जन्म
रा
संबंधार
ATC
वास
। प्रभा
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
in a l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount
stand l
ount | City_ स्थान हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत हिम्नीयत | ा
Natio
ber*
अधिक
CRS
नुसार
हो fru
a US
शानिक
र अनुप
ckno
ndin,
nat to
respo
certif
र ने में
v or i
opria | म्यूचिव
rule
rule
e, c, c, c, c
होने
eest to
होने
eest to
faus
ithi | कर पार
त भारत
ह in I
य, सर्ह
पिछान
के अन्
पर 30
पर 30
पर 30
पर 30
पर 4
पर 30
पर 4
पर 30
पर 4
पर 30
पर 1
पर 30
पर | त में ndia hat t t and the last t t and the last t t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last t and the last | लागू as n v पूर्ण he into decording the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the
property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prope | प्रिक्षण प्रकारी के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रका | सीए by मैंने ion und her via sect tus ect ax इल the my der l. |
| b. c. d. e. 1. 前。 fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial city and in the provision of any of the provision of any of the provision of any of the provision of the provision of the provision of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at I have not with the provisions of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of doro other criteria at a the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provision of the provisio | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श भारत irth is any arantal कि of ANY ou ग मैंडेट ह a mandato है बाहर क lephone n भी प्रश्न र of the ab — प्रमाणि [सार अप- / Central खाता खोत जानकारी / opening held any or otherw के मैं स्वी अन्य मान स्त्रीआरए income stipulate er Gove fCA) an में प्रदान र ट करने के lin the al के मेरे आ कार्रवाई tal Smal s for the irth को प्रस्ता any part | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other that deep not be a souther that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that deep non Republic that dee | देश है? an India कर निव an Indi ा भारत प्रें वा में वा के प्रें वा में वा के प्रें वा के | ासि है बहुत
के बहुत
के बहुत
र से बाहर
र से माग
please
र से साग
please
र से साग
please
है जिं
है जि
है जिं
है जिं
है जिं
है जिं
है जिं
है जिं
है जिं
है जि | र है? र है? र है? र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार र कार कार
 | ि पार्म B कें द्रीय पर्म B कें द्रीय केंद्रीय पर्म B केंद्रीय पर्म B केंद्रीय पर्म B केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद् | प्रत्यक्ष certification of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont | कर व कि प्राप्त कर के कि प्राप्त कर के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि कि कि प्राप्त के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | बोर्ड स्
at I h
f Indi
ए गए
ए गए
विकास
बिक के
lines
ls in 1
many o
y to 6
s in th
y fai
appr
ने सं बैं
 | कर नि देश Co जन्म व Source क Cc कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि Co कि | untry | Country भिक्त के कि Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त के Ta शिक्त | रिजर्व
१ sta
१ sta
१ sta
१ sta
१ sta
१ स्व
१ श्व
१ स्व
१ स् | होतं के तं कर कि ता कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कर कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि तो कि | क आ as p
सर्वो का मूद
of m
izat
यमों
शे एक्
पड़
र
entia
of n
is n
is n
i acc | त्तम
ल्यां के
ल्यां के
ion
और
ion
il fa
my a
otiul fa
coun | कर Tax आई आई appl जान for the the the the cet ke accoupda for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for the for | हार
पहार
ical
whee
one
one
in 3
by
nov
ount
ted
one
in 3 | चान
ntifice
stace
करण
चित्र
चारो
चारेशी
nder
matt
sscrii
nts ()
da
me c
o
o
t or t
vvn to
t or t
vrect
a cev
 | ्शहर
्जन्म
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख्य
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासंख
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्व
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्व
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्वासं
श्व
श्वासं
श्व
श्वा | City_ स्थान स्थान त numl Est में CA/(के अ flवित at a clepes form ya v l l by r l by r in la | अधिक
CRS
नुसार
हो/
ber* | मूचिक
rule
सर्व
! Cer
e, co
! Re
! शां
the
ect o
est the
fau
n fu
ate a
rife i
fau
the
test of
the
test of
the
test of
the
test of
the test of the test of the test of
the test of the test of the test of the test of the test of
the test of the कर पार
कि मार
के अन्
प्र अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
अधि
 | त में andia that the tandal and the ere real Heigr and the ere may tandal and the ere may tandal and the ere may tandal and the ere may tandal and the ere may tandal and the ere may tandal and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere and the ere are the ere and the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the ere are the | लागू । as n v पूर्ण he ini l acco i siden docard i l एफए uthor siden docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docard i docar | प्रकल्प
एफएटी
है और
format
plete a
unt/Ot
सीय रिश्
दोसीए q
ace in
ounts T
तिवार फ्
ace in
lidate to
ble un
period
garan a
ood in | ent by मैंने ion and her प्रति रक्ष कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर
 |
| b. c. d. e. 1. 前 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial dual multiple) (includial and includial multiple) (includial dual multiple) (includial and includial multiple) (includial | स्त्री अन्य देश ountry othe g Green Ca श मारत irth is any amount per of ANY co या मैंडेट ह a mandato है बाहर क lephone n भी प्रश्न द of the ab — प्रमाणि पुसार अप- /Central खाता खोत जानकारी / opening held am r otherw के मैं स्त्री अन्य मान स्त्रीआरएर income stipulate eer Gove िCA) an में प्रदान ट करने के lin the a कि मेरे आ कार्रवाई tal Smal s for the rothery any part | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ह , जिसमें ia other that cother that care is so other that care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is a care is | देश है? an India कर निव ता India । भारत प्रे ता India । भारत प्रे ता विक्रिक स्र ते भा के प्राया है है है है है है है है है है है है है ह | ा भाग है बहुत के बहुत के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
 | र है? र है? र है? र कार Range रकार Range रकार है संबंध eeund- ave to obly we to obly we to obly in the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed of the first signed | ारें। rrt B कें द्रीय 'Resere मेरे हान् एस रिप tharry e ent th कें इर स कें प्रम स्विक् कें प्रम कें कें प्रम स्विक कें प्रम कें कें कें कें कें कें कें कें कें कें | प्रत्यक्ष certification of the comment of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the cool | कर र कि प्राप्त कर कि प्राप्त कर कि प्राप्त कर कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के
कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त के कि कि कि कि प्राप्त के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | बोर्ड स्
at I hat | कर नि देश Co जन्म व Source क टिल् क्थि के प्राप्त के स्वाप्त कर कि समर्थन तो / अन्य क्ष्म के निवेश के समर्थन हों नी विवार के स्विकार महिला कि समर्थन हों नी विवार के स्विकार के द्वारा प्रस्त के स्विकार के द्वारा प्रस्त के समर्थन हों सार्व प्रस्त के समर्थन हों सार्व प्रस्त के समर्थन के समर्थन के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार् | untry | िounth h सि क कि Ta शिवास कि पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार्ट पार् | रिजर्व
/ sta
egar
म संश्
evic
evic
evic
and
evic
fanny
erati
fanny
fanny
fanny
 | हां बैंद
tus
ते के बिंद
ते के हिंद
हों के कि
हों के कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों कि
हों
हों कि
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों
हों | क आ as p
सर्वो कि स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
गण्ड स्वां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
नि
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
निवां
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि
नि | त्रम
ल्यांक
ल्यांक
शुरु
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक | कर Tax आई आई आई suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl suppl s | हार
पहारे
हार derivation of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of
the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of | चान antifice state of the state of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco | ्शहर
्जन्म
श्वासंख्या
सर्वे
ATC
वास । प्रभ
जार्र खात्
खात्
हारा
हारा
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास
श्वास | City_ स्थान र स्थान र प्राप्त स्थान र प्राप्त स्थान ट A/(के आ वित के का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि क | ज्ञाधिक किया शिक्षा किया किया किया किया किया किया किया किय
 | मूचिव
rule
;, सर
I cer
e, co
हो ने
the eet o
हो ने
fau
n fu
ate a
rithi | कर पार
त भारत
हुं in I
य, सह
ttify th
portect
porta
के अन्
त अश्वि
dge an
on th
Cent
f For
vv 30
and ma
e becc
ratur
cution
n the:
s
in Inc. | त में mdia fi आ hat t t and all t t and all t e e ral H eigr दिन ay tax be to the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of the stripped of | लागू । as n
र पूर्ण he in! d com
acco
i अवा
i प्रफए
uthor
siden
d com
i in
i inva
i | एफएटीर
otified
है और
format
iplete a
unt/Oti
सीय रिक्
टीसीए :
टीसीए :
चित्रांचा
विवय
के प्राचित्र
के प्राचित | ent by मैंने ion and her प्रति रहन tus ect tax sect the intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in
intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in intermediate in inter |
| b. c. d. e. 1. मैं - पीः GC 2. मैं एं एं से stath Re 3. मैं : गा पा CC 4. मैं रे बि हि हि हि हि हि हि हि हि हि | क्या आप भारत के अलावा fare you Critizen of any of (dual/multiple) (includial city of the provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provided and provid | स्त्री अन्य देश ountry othe g g Green Ca a rith is any yard of ANY co of ANY co of the above the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other that she had a souther that she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a | देश है? an India कर निव ता India ा मारत र का and and r i मारत र के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया
है के पाया है के पाया है क | ाः शासी है । । । । । । । । । । । । । । । । । । | र है? र है? र है? र है? र है? र है? र है। र कार र कार अच्य s संबंध ह अच्य eund ave to obly we dard ave to oli है। ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच् | ि प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रिय व्यवस्थ कि केंद्रीय प्राप्त के केंद्रिय व्यवस्थ के केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद् | प्रत्यक्ष certife over Ba त प्रदार के आ प्रत्यक्ष त प्रदार के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के साथ प्रत्य के प्राप्त के आ प्राप्त के साथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के
ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के | कर दें fy the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam | बोर्ड स् at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at | कर नि
देश Co
जन्म व
जिने डीर्ट
के टिट
के टिट
के देश
के विवस
प्र आयव्य
प्र शायव्य
प्र शायव्य
शायव्य
प्र शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शाय | untry | Country शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष
 | रिजर्ज । देश x res
रिजर्ज / sta
egar
म के स्टिश्च
हिला है के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | हां बैंद
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां वे क्
शांडां वे क्
शां वे क् | क आ gas particular as particu | ारबीः कार्याव
त्तम क्यांव
भाग kion
और सिक्त
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक | कर Tax आई appl ज्ञान कन/Cnov of i सरवं कर i the ded dia कर ct ke ct ke change accompanion and the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country a | हार derived the predicted in 3 how the predicted in 3 how the predicted in 3 how the predicted in 3 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predicted in 4 how the predi | चान ntifice. I इस ble F dave dge
accomment in the first serial into the first or to the first serial in the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the first serial into the | ्शहर
जन्म रा
सिंख्या
सिंख्या
सिंख्या
सिंख्या
सिंख्या
जारी
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात
खात | City_ स्थान प्रियत हिम में CA/(के अ विक do ac do ac deper form now lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton lepton l | ा Natio
ber*
अधिक
CRS
नुसार
हो /
एंट्री tru
श्रानिव
र अनुग्र
एंट्रेस
प्रानिव
र अनुग्र
हो /
एंट्रेस
प्रानिव
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स् | सूचित rule rule होने es the cect co होने es thicate a rithi हां दि ther mar
 | कर पार
कि भारर
si in I
य, सर्ह
ttify th
portect
porta
के अन्
1 अधि
dge at
dge at
the
Cent
of For
vv 30
at ma
e becc
edur
in In-
sin In- | त में and a land | लागू a as n v पूर्ण he in acco siden acco if के शांवा acco if if a since in acco if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a si | प्रफएटीर
otified
है और
cormat
inplete a
unt/Oti
सीय स्थित
टीसीए :
संघात stal
of Dir
ounts ी
तीर फा
ace in
orrect.
संघात
g वाया :
oad in
 | सीए by मैंने ion und her प्रति और tus ect ax इल the गया the ura (if |
| b. c. d. e. 1. मैं - पी: Go 2. मैं ' पी: पी: पी: पी: पी: पी: पी: पी | क्या आप भारत के अलावा fare you Chizen of any of (dual/multiple) (includial dual multiple) (includial are in a superior of the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the provided in the | स्त्री अन्य देश ountry othe ge Green Ca a mandato of ANY co a mandato of ANY co a mandato of ANY co of the about the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control | के नागरिक r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind r than Ind | ा कोई other that she had a souther that she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a she had a | देश है? an India कर निव ता India ा मारत र का and and r i मारत र के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया है के पाया
है के पाया है के पाया है क | ाः शासी है । । । । । । । । । । । । । । । । । । | र है? र है? र है? र है? र है? र है? र है। र कार र कार अच्य s संबंध ह अच्य eund ave to obly we dard ave to oli है। ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच्य ह अच् | ि प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रीय प्राप्त के केंद्रिय व्यवस्थ कि केंद्रीय प्राप्त के केंद्रिय व्यवस्थ के केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय केंद् | प्रत्यक्ष certife over Ba त प्रदार के आ प्रत्यक्ष त प्रदार के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के आ प्रत्य के साथ प्रत्य के प्राप्त के आ प्राप्त के साथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्रत्य के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ प्राप्त के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के
ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के ताथ के | कर दें fy the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam | बोर्ड स् at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at I had at | कर नि
देश Co
जन्म व
जिने डीर्ट
के टिट
के टिट
के देश
के विवस
प्र आयव्य
प्र शायव्य
प्र शायव्य
शायव्य
प्र शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव्य
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शायव
शाय | untry | Country शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्षा के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष के कि Ta शिक्ष
 | रिजर्ज । देश x res
रिजर्ज / sta
egar
म के स्टिश्च
हिला है के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि | हां बैंद
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां den
शांडां वे क्
शांडां वे क्
शां वे क् | क आ gas particular as particu | ारबीः कार्याव
त्तम क्यांव
भाग kion
और सिक्त
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक्ष
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक
शिक | कर Tax आई appl ज्ञान कन/Cnov of i सरवं कर i the ded dia कर ct ke ct ke change accompanion and the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country are in the country a | हार idea silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve silve si | चान
ntifice
ble F
t
विश्
dge a
acco
grander
matte
escri-
liई प्र
O da
me c
or t
t or t t
rect
acco
y cha | ्शहर
्जन्म
सांख्य
सांख्य
(ATC)
वास
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्य
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्थ
जार्य
जार्थ
जार्य
जार्थ
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार्य
जार
जार
जार
जार
जार
जार
जार
जार
जार
जार | City_ स्थान र स्थान र मां प्राथम स्थान टिंट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे | ा Natio
ber*
अधिक
CRS
नुसार
हो /
एंट्री tru
श्रानिव
र अनुग्र
एंट्रेस
प्रानिव
र अनुग्र
हो /
एंट्रेस
प्रानिव
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स्यामिक
स् | सूचिव
rule
सत्
I cer
e, ce
है शों
नाल-
wlee
g up
o the
eet o
हो ने
ees th
icat
विफ
ithi
हां हि
ther
and g
 | कर पार
कि भारत
के अनु
अधि
बिख्य के अनु
अधि
बिख्य के अनु
बिख्य के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के अ
के अ
के अ
के अ
के अ
के अ
के अ
के अ | त में and a land | लागू a as n v पूर्ण he in acco siden acco if के शांवा acco if if a since in acco if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a since if a si | प्रफएटीर
otified
है और
cormat
inplete a
unt/Oti
सीय स्थित
टीसीए :
संघात stal
of Dir
ounts ी
तीर फा
ace in
orrect.
संघात
g वाया :
oad in | सीए by मैंने ion und her प्रति और tus ect ax इल the गया the ura (if
 |

सामान्य घोषणा और उपकृम GENERAL DECLARATION & UNDERTAKING

I tillicated के मानकों में ह्या पान के साल विनिट्ट क्रेपियों, ट्रन्टी, तोवाइटियों, एसोस्ट्रिएसों के सोई / प्रसंकत समिति के संकल्प पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया है का प्रसंक समिति हुए अलग समिति के संकल्प पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया है का प्रसंक समिति हुए अलग समिति के संकल्प पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया है का प्रसंक समिति हुए अलग समिति के संकल्प पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया है का प्रसंक समिति हुए अलग समिति के संकल्प पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़ियार पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा चाड़िया पर तथा च

liquidation/cancellation of bank licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/we reconstruction comes into force.
• में / हम इस खाते पर आपको दिए जाने वाले किसी भी पैसे के लिए, आपके कमीशन, ब्याज और अन्य शुल्कों और किसी भी कारण से खाते में उत्पन्न होने वाले किसी भी डेबिट शेष के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होने का वचन देते हैं।
// We undertake to be jointly and severally liable to you for any money(ies) owing to you on this account, including your commission, interest and other charges and for any debit balances arising in the account for what so

liguidation/cancellation of bank licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/we reconstruction comes into proce.

**Y, 6 द हंस वा प्राप्त चार किसी में डीबट शेष के लिए संचुकत रूप में के लिए अपने के कमीन्य, ब्याजा के दिवसी भी कारण में दाता र जिस्सी में उत्तर पर्वस्त के प्रति हैं।

**We undertake to be jointly and severally liable to you for any money(less) owing to you on this account, including your commission, interest and other charges and for any debt be balances arising in the account for what so we have the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of t

Customer should carefully examine the entries made in their Statement of Account/s and draw Bank's attention to any errors / omissions / discrepancies that may be discovered within 30 days from the date of entries failing which the same shall be deemed to be correct and accepted by the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the customer and the custome

खुलासी कर सकती हैं (The Bank may disclose information about customer's account if required or permitted by any law, rule or regulations or at the request of any public or regulatory authority or it such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any specific consensor of the customer.

•खाता खालने के लिए राशि जमा करने को मतलब यह नहीं है कि बैंक ने खाता खाल दिया है। खाता खालने को तब तक अस्तित्व में नहीं माना जा सकता जब तक ि बैंक इच्छुक ग्राहक को खाता संख्या, चैक बुक, डेबिट कार्ड आदि युक्त स्वागत किट नहीं देता। बैंक किसी भी समय उपरोक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन / परिवर्तन रव्द करने का अधिकार बिना सुचित किए सुरक्षित रखता है। खाता खालने वाला व्यवित्त खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों से बाध्य होगा।

Mere deposit of the amount for opening an account does not mean that the Bank has opened the account. The account opening cannot be deemed to come into existence until the bank gives the intending customer a welcome kit containing account number, cheque book, debit card etc. The Bank reserves the right to make any changes, alterations, cancellations in the above rules at any time without notice. Any person opening the account shall be bound by the rules governing the account.

•ही डी एस की वर आयकर अधिनयम 1961 के अनुसार एस आयकर नियमों के अनुसार समय—समय पर लागू होगी। TDS rate will be applicable from time to time as per the income tax Act, 1961 & Income tax rules.

•बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना अपने सेवा शुल्क या सामान्य नियम और शतों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। The Bank reserve the right to change its Service charges or General terms and conditions without prior intrinsition to customer.

profinitingtion to customer. के वाईसी विवरण केंद्रीय के वाईसी रिजस्ट्री के साथ साझा किया जा सकता है और मैं पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एसएमएस / ई मेल के माध्यम से बैंक / केंद्रीय के वाईसी रिजस्ट्री यो किसी अन्य प्रिक्तिश के साथ साझा किया जा सकता है और मैं पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एसएमएस / ई मेल के माध्यम से बैंक / केंद्रीय के वाईसी रिजस्ट्री या किसी अन्य प्रिक्तिश कराने के लिए अपनी सहमति देता हूं। I agree that my personal /KYC details may be shared with Central KYC Registry and I hereby give my consent to receive information from Bank/Central KYC registry or any other authority through SMS/Email on the registered mobile no. or email Id.

- Most Important Document

 मैं /हम खाता खोलने के नियमों और शर्ता को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता हूं, जो कैपिटल स्मांत फड़िनंस केंक किसी भी शाखा में उपलब्ध है और जो बैंक की वेससाइट www.capitalbank.co.in पर भी उपलब्ध है। I/we confirm having read and understood terms and Conditions of account opening, which is available at any of the branches of Capital Small Finance Bank and which is also available on bank's website www.capitalbank-co-in

 मैंने /हमने एमआईबी की ग्राहक प्रति में उच्चिनविवत महत्तपुण नियमों और शतों को भी प्राण, पढ़ा और समझन है। मैं/हम इससे या समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य नियम से बाग्य और पालन करने के लिए सहसत हैं।

 1/ We have also received, read and understood important terms and conditions as mentioned in the customer copy of the MID. I / We agree to be bound by and abide by it or any other rules that may be in force from time to time.

 मैं/हम निम्मलिखित को विशेष रूप से समझते हैं और स्वीकार करते हैं रहा मैंने/हमने

 खाता के लिए संदरसता ली है और इसके लिए लागू एक्यूबी/एम वी रू.

 है। मैरे/हमारे द्वारा सब्सक्राइब किए गए उपरोक्त खार पर लागू प्रमार्थ के अनुसूची (एसओसी)। मैं/हम एतहवारा सहमत हुं/हैं कि के समय-समय पर लागू सेवा खुटक के लिए से?/हमारे खाते से खेबिट कर सकता है।

 1/ We specifically understand and accept the following: I. I/We have subscribed for the Product to the above Product subscribed by me / us...I/We hereby agree that the bank may debit my/our account for service charges as applicable from time to time. है। मेरे / हमारे द्वारा सब्सक्राइब किए गए उपरोक्त खाता

applicable from time to time.

- applicable from time to time.
 मैं/इस मसजत है कि चाल खाता बता बता है। I/We understand that Current Account is a non interest bearing account.
 मैं/इस मसजत है कि चाल खाता व्याज पतित खाता है। I/We understand that Current Account is a non interest bearing account.
 मैं/इस मसजत है कि चाल खाता कॉम 49ए के साम खोता है, तो मुझे/इमें खाते को वार्गिख से 90 दिनों के मीतर बैंक को पैन जमा करना होगा। विफल होने पर बैंक मेरे खाते को फ्रीज करने के लिए बाव्य होगा।
 I/We understand that if I have opened the said account with Form 49A, I/We need to submit PAN to the bank within 90 days from the date of account opening, failing which bank will be constrained to freeze my account.
 मैं/इस स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि बैंक के पास किसी भी समय बैंक के एसओसी और उसके नियमों और शर्तों में निर्धारित सेवा शुल्कों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। I/We accept and agree that the Bank reserves the right to change its service charges, as laid out in the Bank's SOC, and its Terms and Conditions at any time.

पार्टनर्स/ डायरेक्टर्स आदि द्वारा हस्ताक्षरित एवंम सुहर लगाई जाए To be Stamped & signed by the Proprietor / Partners / Directors etc.)

पार्टनरशिप फर्म के लिए FOR PARTNERSHIP FIRM

हम ऊपर बताए गए तरीके से फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं और फर्म को बाध्य करने के लिए पूर्ण अप्रतिबंधित अधिकार हैं। हम अपने और अपने संबंधित सम्पदा के गठन के समय के लिए बाध्य करने के इरादे से कार्य करते हैं। We the undersigned are members of the partnership firm continued under the name and style of and is/are authorised to sign on behalf of the firm in manner as mentioned above and have full unrestricted authority to bind the firm. We undertake, with the intention of binding the firm for the time being constituted ourselves and our respective estates.

firm. We undertake, with the intention of binding the firm for the time being constituted ourselves and our respective estates.
बैंक की उपरोक्त शाखा द्वारा नोटिस प्राप्त होने तक और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के किसी भी प्रावधान के बावजूद, बैंक हम में से प्रत्येक को और मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में हमारी संपत्ति को फर्म के भागीदार के रूप में मानने का हकदार होगा और तदनुसार हमारे सम्मान के हकदार हैं फर्म के नाम पर हमारे संबंधित हस्ताक्षर फर्म और हम में से प्रत्येक और हमारी संबंधित संपत्ति और वह। उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बावजूद या फर्म की सदस्यता में किसी भी परिवर्तन के बावजूद बैंक को पूर्वोक्त तरीके से नोटिस प्राप्त होने से पहले फर्म की और से किए जाने वाले सभी कार्य फर्म और हम में से प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे और हमारे संबंधित राज्य और खंत की देनदारियों और हम में से प्रत्येक और हमारे संबंधित राज्य ति कार्य फर्म और खंति के से नोटिस प्राप्त होने से पहले फर्म की और से किए जाने वाले सभी कार्य फर्म और हम में से प्रत्येक और हमारे संबंधित राज्य तब तक जारी रहेंगे जब तक ऐसे कृत्यों के संबंध में सभी देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाता है 1. Until receipt of a notice by above branch of the Bank and notwithstanding any provisions of the Indian Partnership Act 1932, the Bank shall be entitled to regard each of us and in case of death or insolvency our estate as Partners of the firm and accordingly entitled to honor our respective estates and that 2. Notwithstanding any provisions of the said Act, or any change in the membership of the firm all acts purporting to be done on behalf of the firm before the Bank shall have received notice in manner aforesaid shall be binding on the firm and each of us and our respective estates and the liabilities of the firm and of each of us and our respective estates shall continue until all liabilities in respect of such acts have been discharged. 3. We are jointly and severally responsible for all the liabilities to the bank under any account.

discharged. 3. We are jointly and severally responsible for all the liabilities to the bank under any account.	continue until all liabilities in respect of such acts have been
Signatures of Partners with Stamp Signatures of Partners with Stamp	Signatures of Partners with Stamp
आरंधिक भुगतान INITIAL PAYMENT	
राशि (अंकों में) Amount (in Figures) निकासी मेरे / हमाने हमाना संस्था	चैक नंबर
☐ कैश Cash ☐ Debit my/our Account no ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Cheque Number
तिथि Date D D M M Y Y Y Drawn On B A N K N A N N A N N A N N	√ E शाखा
RTGS/NEFT [(आरंभिक जमा राशि के लिए किसी भी मोड से थर्ड पार्टी पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी) (No third	d party payment shall be accepted for initial deposit through any mode.)
यदि यह खाता नहीं खोला जाता है, यदि मैंने / हमने शुरू में खाते में 20000 रुपये या उससे अधिक के लिए नकद राशि जमा की है (In the event this account is not opened, if I /We have initially funded the account in cash for Rs 20000 or more, i	
नामंकन विवरण (केवल स्वाभित्व खातों के लिये) (NOMINATION DETAILS (ONLY FOR PROPRIETORSHIP) नामंकन पंजीकृ	त न. NOMINATION REGD NO.
बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 अनुसूची 21 की धारा 45ZA के तहत नामांकन नियम 198 the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 l1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 i	n respect of bank deposits.
नाम Name	जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि कोई) Relationship with depositor (if any) :
पता Address	पिन कोड Pin code
राज्य देश जन्मतिथि (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो) State Date of birth (if nominee is mine	or) अायु (वर्ष) अायु (वर्ष) Age (yrs):
*यदि इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, मैं/हम नियुक्त करते हैं श्री/श्री मति/कुमार *As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum	
मेलिंग पता Mailing address	नियुक्त व्यक्ति की आयु Age of Appointee (Years)
मेरे / हमारे / अवयस्को की मृत्यु नामांकित व्यक्ति के अवश्यक रहने के दौरान होने की स्थिति में जमा राशी प्राप्त करने के लिए नामांकित व To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority witness	
TUT Name	
Address	
स्थान Place तिथि Date	Signature of witness
X	
Capital Small Finance Bank : ACKNOWLEDGEMENT - DA 1	Sr.No.
We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:	
Name of the Nominee	Age: Years.
with respect to Your A/c. No(s)	
Nomination Regd NoDate of Receipt form	Signature of bank official with seal

	NON INDIVIDUAL FATCA
	Name
(ए) (a)	इनपुर अनिवार्य है *One input is mandatory क्या खाताधारक एक सरकारी निकाय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन/सूचीबद्ध है किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर I is the account holder a Government Body / International Organization / listed on any recognised stock exchange. हाँ और आप सूचीबद्ध हैं तो कृपया स्टॉक एक्सचेंज का नाम निर्देष्ट करें, ————————————————————————————————————
_	es and you are listed please specify the name of the stock exchange, , if no proceed to point
(b)	क्या खाताघारक (इकाई ∕ वित्तीय संस्थान) किसी देश का कर निवासी है भारत के अलावा s the account holder (Entity/Financial Institution) tax resident of any country other than india
Be	हाँ, तो कृपया Fatca@crs रच−प्रमाणन भरें), यदि नहीं, तो बिंदु (ब) पर आगे बढ़ें). ng an AD-2 category, the Bank is presently not opening accounts of foreign entities, If 'No' proceed to point
	क्या खाताघारक एक भारतीय वित्तीय संस्थान है हा Yes ानहीं No ा प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्र
(if	(यदि हाँ, तो कृपया अपना GIIN ——————,यदि कोई हो, प्रदान करें, yes please provide your GIIN, if any,
	नहीं बिंदु पर आगे बढ़ें (डी) If no proceed to point स्वाभित्व की इकाई या श्रृंखला में पर्याप्त मालिक या नियंत्रित व्यक्ति हैं मारत के बाहर किसी भी देश में कर उद्देश्य के लिए निवासी या भारतीय नागरिक नहीं
(d) Be ग्रा	हाँ, तो कृपया FATCA@CRS स्व-प्रमाणन मरें), यदि नहीं, तो कृपया घोषणा पर इस्ताक्षर करें)। Are Substantial owners or controlling persons in the entity or chain of ownership resident for tax purpose in any country outside india or not an indian Citizen. and AD-2 category, the Bank is presently not opening accounts of foreign entities, If 'No' proceed to point क घोषणा Customer Declaration:- गवाही के देव के तहत, में / इस प्रमाणित करते हैं कि
1.3	नपात प्र ५० फ एक. ११ हम अभाजा परत है कि वेदक (ए) संयुक्त राज्य अमेरिका ("यू.एस.") या उसके किसी भी राज्य या राजनीतिक उपखंड के कानूनों के तहत एक अमेरिकी व्यक्ति के रूप में कर योग्य है, जिसमें कोलबिया जिला या कोई अन्य राज्य शामिल है। यू.एस., (ii) एक संपत्ति, जिसकी आय यू.एस. संघीय आयकर के अधीन है, उसका स्रोत कुछ भी हो, या (यह खंड केवल तमी लागू होता है जब खाता घारक को यू.एस. व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है)
ग्रा (I)	क घोषणा Customer Declaration:- Under penalty of perjury, I/We certify that:
	The applicant is (i) an applicant taxable as a person under the law of the United States of America ("US" or any state or political subdivision there of or there in, including the District of Columbia or any other states of the U.S., (ii) an estate, the income of which is subject to U.S. Federal Income Tax regardless of the source thereof, or (this clause is applicable only if the account holder is identified as a U.S. Person)
(द्वि	बेदक भारत के बाहर देश के कानूनों के तहत कर निवासी के रूप में कर योग्य है (यह खंड कंकल तमी लागू होता है जब खाता घारक भारत के बाहर कर निवासी हो) गिथा में /हम समझते हैं कि बैंक इस जानकारी के अनुपालन में आवेदक की स्थिति का निर्धारण करने के उदेश्य से इस जानकारी पर मरोसा कर रहा है। १टीसीए/सीआरएस। बैंक FATCA या CRS या आवेदक पर इसके प्रमाव पर कोई कर सताह देने में सक्षम नहीं है। मुझे, हमें किसी भी कर संबंधी प्रश्न के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए
मैं / (ट)	हम 30 दिनों के मीतर एक नया फॉर्म जमा करने के लिए सहमत हैं यदि इस फॉर्म पर कोई जानकारी या प्रमाणीकरण गलत हो जाता है। मैं /हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं /हम इस फॉर्म पर और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदक की करदाता पहचान संख्या सहित प्रमाणीकरण सही, सही और पूर्ण है।
2. (II)	The applicant is taxable as a tax resident under the laws of the country outside India (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India.) I/We understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice of TCA or CRS or its impact on the applicant
I w (iii	e should seek advice from professional tax advisor for any questions I we agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect
(I\	I/We agree that as may be required by regulatory authorities, the Bank may also be required to report reportable details to CBDT or close or suspend my account I / We certify that I/we provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief certification is true, correct, and complete including the tax payer identification number of the applicant.
	Signature(s) with stamp Signature(s) with stamp Signature(s) with stamp
	इ-बैंकिंग सेवाये E-BANKING SERVICES
	स्ताया बेस्सिन पर (🖊) तथा अन बेस्सिन पर (🗸) ज्यापना । त्यति भी जन्मीय क्यानी न क्यति ।
	Please tick the desired (🗸) Cross the undesired (🗶) Do not leave any field BLANK
	कृप्या इच्छित पर (✓) तथा अन इच्छित पर (≿) लगाओ। कोई भी बलॉक खाली न छोडें। Please tick the desired (✓) Cross the undesired (≿) Do not leave any field BLANK
	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking है हो गोरेंट E Statement कैंपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड
	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking कैंपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card
	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking किपटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट)
	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ई स्टेटमेंट E-Statement कैंपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly गिसक Monthly प्रमिक Monthly छमाही Half yearly
	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ई स्टेटमेंट E-Statement ई स्टेटमेंट E-Statement ई स्टेटमेंट E-Statement ई स्टेटमेंट E-Statement ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मोबाईल नम्बर *Mobile No.
•	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts Mobile Alerts शिव्हा मी शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा में स्टेटमेंट E-Statement कैंपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ईंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ईं स्टेटमेंट E-Statement इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ईं सेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मोबाईल सेवा प्रदाता Mobile No. * (Applicable only for numbers issued in India) डिजियत बैंकिंग के लिए गोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अलर्ट जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला अलर्ट भेजा जाएगा, मले ही आपने सुविधा के लिए सदस्यता ना ली हो।
•	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts Mobile Alerts शिव्हा मी शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा मि शिव्हा में स्टेटमेंट E-Statement कैंपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card
• • •	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ईंटरनेट बैंकिंग Internet Banking (Please fill separate form for I-Banking services-Retail) ईं स्टेटमेंट E-Statement दिनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly गासिक Monthly ग्रे मासिक Quarterly अमेबाईल नम्बर *Mobile No. *(केवल मारत में जारी मोबाइल न. के लिए) *(Applicable only for numbers issued in India) किंग्यत बैंकिंग के लिए मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अलर्ट जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला अलर्ट मेंजा जाएगा, मले ही आपने सुविधा के लिए सदस्यता ना ली हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking Mobile Alerts ईंटरनेट बैंकिंग Internet Banking (Please fill separate form for I-Banking services-Retail) ईं स्टेटमेंट E-Statement दिनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly गासिक Monthly ग्रे मासिक Quarterly अमेबाईल नम्बर *Mobile No. *(केवल मारत में जारी मोबाइल न. के लिए) *(Applicable only for numbers issued in India) किंग्यत बैंकिंग के लिए मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अलर्ट जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला अलर्ट मेंजा जाएगा, मले ही आपने सुविधा के लिए सदस्यता ना ली हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts (Please fill separate form for I-Banking services-Retail) ई स्टेटमेंट E-Statement कैपिटल ए टी एम / डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मासिक Monthly तै मासिक Quarterly *मोबाईल नम्बर *Mobile No. *(केवल मारत में जारी मोबाइल न. के लिए) *(Applicable only for numbers issued in India) डिजिटल बैंकिंग के लिए गोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अवर्ट जो आरप्तीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला अलर्ट गेजा जाएगा, मते ही आपने सुविधा के लिए सदस्यता ना ली हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility. बिना किसी शुल्क के बैंक द्वारा डिफॉल्ट रूप से विनियामक और जोखिम अलर्ट मेजे जाएंगे। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges.
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts (Please fill separate form for I-Banking services-Retail) ई स्टेटमेंट E-Statement कैपिटल ए टी एम / डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मासिक Monthly तै मासिक Quarterly *मोबाईल नम्बर *Mobile No. *(केवल मारत में जारी मोबाइल न. के लिए) *(Applicable only for numbers issued in India) डिजिटल बैंकिंग के लिए गोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अवर्ट जो आरप्तीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है और बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला अलर्ट गेजा जाएगा, मते ही आपने सुविधा के लिए सदस्यता ना ली हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility. बिना किसी शुल्क के बैंक द्वारा डिफॉल्ट रूप से विनियामक और जोखिम अलर्ट मेजे जाएंगे। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges.
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts (Please fill separate form for I-Banking services-Retail) ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly मोबाईल नम्बर *Mobile No. *(केवल मारत में जाएं मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) शिक्टल बैंकिंग के लिए मोबाइल वर्त के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking अवर्ट जो आत्मीआई हाल अविवार मिला मांचा वाल अवर्ट में जा प्राप्ता स्वारण, मने ही आपने सुविमा के लिए सरस्वा ना ती हो। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility. बिना किसी सुल्क के बैंक द्वारा डिफॉल्ट रूप से विनियामक और जोखिम अवर्ट में जा जाएंगे। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges. Signature(s) with stamp Signature(s) with stamp
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैं किंग Internet Banking शिल्का शी (इंस्टेटमेंट)
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking ई-स्टेटमेंट E-Statement कैपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) चिना कार्य चिना कार्य चिना कार्य करने की तिथि Request Lodgement Date Signature(s) with stamp Signature(s) wi
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैं किंग Internet Banking शिल्का शी (इंस्टेटमेंट)
•	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts इंटरनेट बैं किंग Internet Banking शिल्का शी (इंस्टेटमेंट)
• • •	मोबाइल पर सूचनाएं Mobile Alerts Pease Illi separate form for i-Banking services-Retail) ई-स्टेटमेंट E-Statement कैपिटल ए टी एम/डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) विनक Daily साप्ताहिक Weekly पाशिक Fortnightly मासिक Monthly त्रै मासिक प्रवास प्रवास **Mobile No.
	मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking (Passe III separate form for I Banking services Metalls) ई -स्टेटमेंट E-Statement Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) चैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly गासिक Monthly प्रेग गासिक Monthly फणाही Half yearly Quarterly फणाही Half yearly Nobbile No. *भोबाईल नम्बर भीका के दिए गोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) िक्षेत्रक सारत में बार्च मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) िक्षेत्रक सारत में बार्च मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) िक्षेत्रक सारत में बार्च मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) िक्षेत्रक सारत में बार्च मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) िक्षेत्रक सारत में बार्म मोबाइल न. के लिए) * (Applicable only for numbers issued in India) Plant के लिए मोबाईल सेवा प्रदाता Mobile Service Provider *भोबाईल सेवा प्रदाता Mobile Service Provider
	मोबाइल पर सुबनाएं इंट्रप्तेट वें किंग Internet Banking Mobile Alerts किंग्या Internet Banking (Please III) separate form for 1- Banking service- Retail) इं - स्टेटमेंट E-Statement Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट)
	मोबाइल पर सुवनाएं Mobile Alerts (Please Ill separate form for Hauring structus करवात) ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट) Email ID (e-statement) दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly पाहित्क Fortnightly गासिक Monthly त्र गासिक Wearley *गोबाईल नम्बर *गोबाईल स्वेत प्रमासक Quarterly छमाही Half yearly *गोबाईल स्वेत प्रमासक Monthly त्रिक्ष प्रमासक Quarterly *गोबाईल स्वेत प्रमासक प्रमासक स्वेत के लिए गोसिक Meekly पाहित्क Fortnightly गासिक Monthly त्र गासिक Wearley *गोबाईल स्वेत प्रमासक स्वेत के लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोसिक में लिए गोस
	मोबाइल पर सुबनाएं इंट्रप्तेट वें किंग Internet Banking Mobile Alerts किंग्या Internet Banking (Please III) separate form for 1- Banking service- Retail) इं - स्टेटमेंट E-Statement Capital ATM cum/ Debit Card ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट)